

# विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 11 | अंक : 170 | गुवाहाटी | सोमवार, 20 जनवरी, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

गैसोलिन टैंकर में भीषण विस्फोट, 70 लोगों की मौत

पेज 2

असम दल के राष्ट्रीय खेल जर्सी का विमोचन और वितरण

पेज 3

दो लाख नौकरियां देना दूर, सीईटी तक नहीं करवा रही सरकार : हुड्डा

पेज 5

बीसीसीआई दिशा-निर्देशों को लेकर बीसीसीआई सचिव से बात करेंगे रोहित

पेज 7

## महाकुंभ में भीषण आग

■ तीन सिलेंडर फटे ■ कई टेंट जलकर खाक ■ पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर की बात

**प्रयागराज।** महाकुंभ मेला क्षेत्र में रविवार को भीषण आग लग गई। ये आग शास्त्रीय ब्रिज के नीचे सेक्टर 19 के इलाके में लगी। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के समय टेंट में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशकत के बाद आग पर काबू पाया। उधर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर बात की और मामले की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक, शाम करीब चार बजे सेक्टर 16 स्थित दिगंबर अनी अखाड़े में प्रसाद बनाया जा रहा था। इसी दौरान भीषण आग लग गई। टेंट में रखे तीन सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। 20 से 25 टेंट खाक हो गए। जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। काफी मशकत के बाद आग को बुझाने में टीम को सफलता मिली। भीड़ अधिक होने के कारण दमकल को पहुंचने में समय लगा। पूरे महाकुंभ मेला में अलर्ट जारी कर दिया गया। हरिसाम



त्रिपाठी व देवेन्द्र त्रिपाठी शांतनु निवासी दारगंज के मेले में घूम रहे थे। इस दौरान एक शिविर से धुआं उठते देखा। इसके बाद यह लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह सिलेंडर निकालकर बाहर फेंकने लगे। इस दौरान तीन सिलेंडर ब्लास्ट हुए। यूपी के मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आग पर 20 मिनट के भीतर काबू पा लिया गया। घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और इसके लिए मैं मां गंगा, त्रिवेणी और लेटे हनुमान जी को धन्यवाद देता हूँ।

हमारी पुलिस टीम और एनडीआरएफ मौके पर है। उधर आग लगने के बाद सिलेंडरों के फटने से अफरा तफरी मची हुई है। एक के बाद एक करीब दर्जन भर सिलेंडर फट चुके हैं, जिससे राहत और बचाव कार्य में दमकलकर्मियों को दिक्कत हो रही है। पचास से अधिक शिविर आग की चपेट में चुके हैं। फायर ब्रिगेड की 50 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। रविवार को मुख्यमंत्री प्रयागराज में ही हैं। वह आईटिपलसी में अधिकारियों के साथ बैठक करके निकले ही थे आग की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर ने कहा कि रविवार को 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र सेक्टर 19 के गीता प्रेस में आग लगने की सूचना मिली थी। अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गीता प्रेस के साथ 10 प्रयागवाली के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको बुझा लिया गया है। स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। आग बुझाने गई दमकल की गाड़ी रेत में फंस गई। मुख्यमंत्री योगी

## तीन दिवसीय यात्रा पर दक्षिण कोरिया पहुंचे सीएम

बानपो हानगांग नदी उद्यान से गुवाहाटी रिवरफ्रंट के लिए प्रेरणा लिया



**गुवाहाटी (हि.स./ए.जे.)** असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने दक्षिण कोरिया में एडवांटेज असम 2.0 रोड शो के दौरान बानपो हानगांग नदी उद्यान का दौरा करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि इस नदी के किनारे स्थित एक सुव्यवस्थित द्वीप है, जिसे सियोल के निवासियों के मनोरंजन के लिए विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुवाहाटी रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट इसी दृष्टिकोण के तहत निर्माणाधीन है और इसे जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा संभावित निवेशकों, उद्यमियों और व्यापार जगत के नेताओं के समक्ष राज्य के एडवांटेज असम 2 के विजन को प्रस्तुत करने के

**एडवांटेज असम 2.0**

लिए दक्षिण कोरिया और जापान की पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने एक्स पर लिखा कि अपने प्रवास के दौरान, मैं असम को प्रदर्शित करने का इरादा रखता हूँ - जो दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है और उत्कृष्ट मानव पूंजी से संपन्न है, जो माननीय प्रधान मंत्री श्री @narendramodi जी की एक ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने में एक प्रमुख लक्ष्य राज्य है। उन्होंने कहा कि मैं आज से शुरू हो रही अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान उद्योग जगत के नेताओं और एजेंसियों के साथ दिलचस्प चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य एडवांटेज असम 2

-शेष पृष्ठ दो पर

## राज्य सरकार ने अवैध कोयला खदानों को बंद करने के लिए सात दिन का समयसीमा दिया

**गुवाहाटी।** अवैध कोयला खनन से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीपी सिंह ने राज्य भर में सभी कोयला क्षेत्रों को बंद करने के लिए सात दिन की समय सीमा जारी की है, जहाँ रैट-होल खनन गतिविधियां चल रही हैं। रविवार को मार्गिरा, लेडो और लेखापानी में खनन स्थलों के निरीक्षण के दौरान निर्देश की पुष्टि की गई, जिसे महानिरीक्षक (आईजी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी)



के साथ मिलकर किया गया। डीजीपी सिंह ने जोर देकर कहा कि खनन विभाग, जिला प्रशासन, वन विभाग, कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य सहित सभी हितधारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध रैट-होल खनन स्थलों को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है। सिंह ने कहा कि मार्गिरा, लेडो और लेखापानी जैसे क्षेत्रों में अवैध खनन जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के निर्देशों के अनुसार,

स्थलों को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है। सिंह ने कहा कि मार्गिरा, लेडो और लेखापानी जैसे क्षेत्रों में अवैध खनन जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के निर्देशों के अनुसार,

**एडवांटेज असम 2.0**

**गुवाहाटी।** सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारीका ने ऑल कोच राजवंशी स्टूडेंट यूनियन (आक्रासू) से 21 जनवरी को 12 घंटे के राज्यव्यापी बंद की योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने की इसकी क्षमता का हवाला देते हुए हजारीका ने इसके स्थान पर शांतिपूर्ण वार्ता की अपील की। हजारीका ने कहा कि इस समय बंद का आह्वान असम की आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, खासकर तब जब हम एडवांटेज असम 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, जो राज्य के औद्योगिकीकरण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। अब बंद करना



खतरनाक होगा। मंत्री ने कोच राजवंशी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा और कामतापुर से जुड़े मुद्दों का समाधान शामिल है। हजारीका ने सरकार की बातचीत में शामिल होने की इच्छा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन आक्रासू से आग्रह करते हैं कि व्यवधान के बजाय बातचीत को चुनें। मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में एडवांटेज असम 2.0 को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर हैं, अपनी वापसी पर आक्रासू प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उन्होंने चर्चा करते हुए प्रयासों का उल्लेख किया, जैसे कि समुदाय के लिए 13 मेडिकल सेंटें आरक्षित करना और आईआईटी

-शेष पृष्ठ दो पर

## सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह




नई दिल्ली। असम के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक के रूप में असम के डीजीपी जीपी सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नए महानिदेशक के नाम पर मुहर लग गई है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, उनका कार्यकाल 30 नवंबर, 2027 तक या अगले आदेश तक रहेगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाकुंभ को एकता और समता-समरसता का असाधारण संगम करार दिया और कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम *मन की बात* की 118वीं कड़ी जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि यह दिन इसलिए अहम है, क्योंकि इसी दिन

## महाकुंभ को एकता और समता का प्रतीक, यहां कोई भेदभाव नहीं : पीएम



का उल्लेख किया और कहा कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व से जुड़ जाती है तो उसकी सभ्यतागत जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 25 करोड़ दो दर्जन किसानों की तबियत बिगड़ गई व खून की उल्टियां आना शुरू हो गईं। डल्लेवाल व अन्य किसान नेताओं की अपील पर 121 किसानों ने आज दोपहर अनशन समाप्त कर दिया और



का उल्लेख किया और कहा कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व से जुड़ जाती है तो उसकी सभ्यतागत जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 25 करोड़ दो दर्जन किसानों की तबियत बिगड़ गई व खून की उल्टियां आना शुरू हो गईं। डल्लेवाल व अन्य किसान नेताओं की अपील पर 121 किसानों ने आज दोपहर अनशन समाप्त कर दिया और

का उल्लेख किया और कहा कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व से जुड़ जाती है तो उसकी सभ्यतागत जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 25 करोड़ दो दर्जन किसानों की तबियत बिगड़ गई व खून की उल्टियां आना शुरू हो गईं। डल्लेवाल व अन्य किसान नेताओं की अपील पर 121 किसानों ने आज दोपहर अनशन समाप्त कर दिया और

## डल्लेवाल के समर्थन में बैठे 121 किसानों का अनशन समाप्त



का उल्लेख किया और कहा कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व से जुड़ जाती है तो उसकी सभ्यतागत जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 25 करोड़ दो दर्जन किसानों की तबियत बिगड़ गई व खून की उल्टियां आना शुरू हो गईं। डल्लेवाल व अन्य किसान नेताओं की अपील पर 121 किसानों ने आज दोपहर अनशन समाप्त कर दिया और



का उल्लेख किया और कहा कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व से जुड़ जाती है तो उसकी सभ्यतागत जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 25 करोड़ दो दर्जन किसानों की तबियत बिगड़ गई व खून की उल्टियां आना शुरू हो गईं। डल्लेवाल व अन्य किसान नेताओं की अपील पर 121 किसानों ने आज दोपहर अनशन समाप्त कर दिया और

## न्यूज गैलरी

**राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी में मामला दर्ज**

**गुवाहाटी।** कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भाजपा, आरएसएस के साथ ही इंडिया स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर मुसीबतों से घिर गए हैं। बयान को लेकर राजनीतिक विरोध झेल रहे राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर

**असम एसटीएफ ने वांछित जिहादी को किया गिरफ्तार**

**गुवाहाटी (हि.स.)** असम में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का ऑपरेशन प्रघात लगातार चल रहा है। एसटीएफ ने रविवार को धुबड़ी जिले के बिलासीपाड़ा से वांछित जिहादी जाहिर अली को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस मुख्यालय के अनुसार असम एसटीएफ ने धुबड़ी जिले के बिलासीपाड़ा से वांछित जिहादी जाहिर अली को गिरफ्तार किया है। आरोपित जाहिर अली, धुबड़ी जिले के बिलासीपाड़ा

## बांग्लादेशी घुसपैठिया ने सैफ पर किया हमला : पुलिस



**मुंबई।** मुंबई पुलिस ने रविवार तड़के बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर चाकू से वार करने वाले हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 6 महीने पहले ही बांग्लादेश से मुंबई आया था। मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है। पुलिस ने पुष्टि की कि हमलावर



बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत आया था। हमलावर 6 महीने पहले ही बांग्लादेश से मुंबई आया था। वो यहां आकर एक

**कोर्ट ने पांच दिनी हिरासत में भेजा**

**मुंबई।** बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी 30 वर्षीय मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को मुंबई की अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रविवार को गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बांद्रा की अवकाशकालीन अदालत में पेश किया गया था, जहां उसे 24 जनवरी तक मुंबई पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस को आरोपी की हिरासत देते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी

## भारतीय महिला टीम बनी पहली वर्ल्ड चैंपियन, नेपाल को हराकर जीता खिताब



**नई दिल्ली।** भारत खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन टीम बन गई है। नई दिल्ली में रविवार 19 जनवरी को खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने एक्तरफा अंदाज

में नेपाल को 38 पॉइंट्स के बड़े अंतर से आसानी से हरा दिया और खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के पहले मैच से ही लगातार दबदबे के साथ हर मुकाम जीत रही भारतीय महिला टीम ने फाइनल में भी यही अंदाज जारी रखा और नेपाल को 78-40 की स्कोरलाइन के साथ हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। 13 जनवरी से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और अपने पहले ही मैच में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 176 पॉइंट्स हासिल कर बड़ी जीत

-शेष पृष्ठ दो पर



<b>CLASSIFIED</b>
For all kinds of classified advertisements please contact
<b>97070-14771</b>
<b>86382-00107</b>

<b>MURTI AVAILABLE</b>
Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shiviling, Nandi etc. <b>ARTCLE WORLD, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952</b>

### प्रथम वाहिनी

## एनडीआरएफ ने मनाया 20वां स्थापना दिवस

गुवाहाटी (हिस ) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की प्रथम स्थापना दिवस को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पाटगांव स्थित प्रथम वाहिनी मुख्यालय में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना दिवस के मौके पर एनडीआरएफ की प्रथम वाहिनी के कमांडेंट एचपीएस कंडारी ने बचाव कर्मियों की बहादुरी, समर्पण की सराहना कर राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को नि:स्वार्थ बताया। उन्होंने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

## महाकुंभ में भीषण…

आदित्यनाथ घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। भीड़ के चलते जल्द ही वह लौट गए। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में शाम के समय आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 कैंप में लगी थी। खबर है कि विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के टेंट में खाना बनाने समय यह आग लगी थी, जिसने कई टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके बाद उनमें रखे गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट होने लगे जिसमें करीब 20 से 25 टेंट जल कर राख हो गए। वहीं वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने से कई टेंट जलने और आग के विस्तृत रूप से तेजी से बढ़ने की सूचना है। भाजपा सरकार से अपील है कि तत्काल राहत कार्य तेज किए जाएं और कोई हताहत ना हो इसका ध्यान रखा जाए। इसके आगे मीडिया सेल नने पू्वे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि मेला क्षेत्र प्रबंधन का जो ढिंढोरा सीएम योगी पीट रहे थे और सबको आमंत्रित कर रहे थे क्या ये वही व्यवस्था है जो आज दिखाई दी है ? सच्चाई यह है कि सीएम योगी ने सिर्फ ढिंढोरा पीटा है और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, बाकी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ राम भगवान भरोसे ही है। वहीं पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की। उन्होंने आग का एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना न हो, इसको सुनिश्चितकियाजाए। वहीं सपा के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए।। समाजवादी पार्टी इसी मंशा के साथ बैठी है कि महाकुंभ में कुछ दुर्घटना हो जाए। हिंदू घृणा को पराकाष्ठा दिख रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। वहीं भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश के बयान पर कहा कि कुंभ को बदनाम करना बंद करें अखिलेश। उन्होंने रावत किया कि आखिकार सपा प्रमुख को कुंभ से इदानी समरप्या क्यों। सवाल के अंधरे में हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले अखिलेश यादव कुंभ क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि 2013 में अखिलेश सरकार में हुए कुंभ में भारी अव्यवस्था थी। वहीं 2025 में हो रहे महाकुंभ की व्यवस्था की देश दुनिया भर में सराहना हो रही है।

### तीन दिवसीय यात्रा…

शिखर सम्मेलन से पहले असम की क्षमता को उजागर करना तथा भारत-कोशियाई संबंधों को मजबूत बनाना है। इससे पहले, असम के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह लंदन निवेशक सम्मेलन के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया था। मुख्यमंत्री 19 जनवरी से 21 जनवरी तक सियोल में तथा 21 से 24 जनवरी तक टोक्यो में एडवांटेज असम 2 रोड शो में भाग लेंगे। शर्मो 25 जनवरी तक जापान में रहेंगे, उसके बाद वे सिंगापुर जाएंगे। उल्लेखनीय है कि एडवांटेज असम 2 रोड शो जनवरी और फरवरी 2025 में 8 देशों में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन 25 और 26 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित होगा। असम सरकार ने राज्य के प्रमुख वैश्विक निवेश और अवसरचना शिखर सम्मेलन, एडवांटेज असम 2.0 से पहले वैश्विक निवेश अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य को शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, तथा शिक्षा, उद्योग, कृषि और सुरक्षा में इसकी ताकत पर सहायता डालना है।

### राज्य सरकार ने अवैध …

ऐसे सभी काम सात दिनों के भीतर बंद होने चाहिए। अधिकारियों को उमरंगसो में बंद पड़ी खदानों को सील करने का भी निर्देश दिया गया है। इस तीव्र कार्रवाई के तहत अधिकारियों ने तिनसुकिया जिले में 13 अवैध रैट-होल खदानों को सील कर दिया है। शनिवार को मार्गैरिटा बस-जिला के अंतर्गत नामदांग कोलियरी के बिट्टू पहाड़ पर एक अलग छापेमारी में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त चार व्यक्तियों को पकड़ा गया। साइट पर दो अस्थायी कार्यालयों को सील कर दिया गया और अधिकारियों ने जनेंटर और उत्खनन मशीनों सहित उपकरण जब्त कर लिए। यह अभियान मार्गैरिटा सह-जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रोतम गोगोई, डीजीपी सिंह, भांगेरिटा पुलिस कर्मियों, कोल इंडिया लिमिटेड के नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के प्रतिनिधियों और असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों की उपस्थिति में चलाया गया। दीमा हसाओ जिले में पुलिस और जिला प्रशासन ने अवैध खदानों को सील करने और खनन उपकरण जब्त करने के लिए समानांतर अभियान शुरू किया है। यह पहल 6 जनवरी को हुई एक दुर्घद घटना के बाद की गई है, जब उमरंगसो के टेटन किलो इलाके में एक रैट-होल खदान में

# नाइजीरिया में भयानक हादसा गैसोलीन टैंकर में भीषण विस्फोट, 70 लोगों की मौत

**एबुजा**। नाइजीरिया के नॉर्थ-सेंटर हिस्से में एक गैसोलीन टैंकर में विस्फोट होने से कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है। देश की इमरजेंसी रिस्पॉंस एजेंसी के मुताबिक यह विस्फोट शनिवार को नाइजर प्रांत के सुलेजा क्षेत्र के पास हुआ, जब कुछ लोग जनेंटर का उपयोग करके एक टैंकर से दूसरे ट्रक में गैसोलीन ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के हसैनी ईसा ने बताया कि पम्यूल ट्रांसफर के कारण विस्फोट हुआ, जिसके बाद गैसोलीन ट्रांसफर करने वालों और आसपास खड़े लोगों की मौत हो गई। ईसा ने कहा कि बचाव अभियान जारी है। नाइजर के गवर्नर मोहम्मद बागो ने एक बयान में कहा कि राज्य के डिकको क्षेत्र में कई निवासी गैसोलीन टैंकर से ईंधन निकालने की कोशिश करते समय

भीषण आग में फंस गए। बागो ने कहा कि कई लोग जलकर मर गए। उन्होंने बताया कि जो लोग टैंकर के इतने करीब नहीं थे, वे घायल होने के बावजूद बच गए। उन्होंने इस घटना को चिंताजनक, हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, स्थानीय समाचार पत्र द नेशन ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि इस घटना में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई। नाइजर की राज्य सरकार ने स्थानीय मानवीय एजेंसियों से चुनौती का सामना करने और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने का आह्वान किया है। नाइजीरिया में पेट्रोल टैंकर में विस्फोट होना कोई असामान्य बात नहीं है, जिसके कारण अक्सर भारी जनहानि होती है और राष्ट्रव्यापी शोक होता है। सितम्बर में नाइजर के एक व्यस्त राजमार्ग पर

पेट्रोल से भरे टैंकर में विस्फोट होने से कम से कम 48 लोग मारे गए थे। जबकि कई नाइजीरियाई लोग लगातार रहे रही इन घटनाओं के लिए वर्तमान

### महाकुंभ में सीएम ने सुनी मन की बात

**प्रयागराज/जयपुर ( हिस )**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को *मन की बात* कार्यक्रम के 118वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। नवंबर 2025 का यह पहला *मन की बात* कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रयागराज महाकुंभ स्थित राजस्थान मंडप में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ू चिरमरणीय जन-सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता-समरसता का असाधारण संगम विविधता में एकता का उत्सव है।

## पृष्ठ एक का शेष

पानी भर गया था, जिसमें कई खनिक फंस गए थे। 10 जनवरी तक चार शव बरामद किए गए, जबकि पांच खनिक अभी भी लापता हैं। राज्य सरकार की यह कार्रवाई अनधिकृत खनन पर अंकुश लगाने तथा रैट-होल खनन प्रथाओं के खतरों से जीवित और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

### सरकार ने आक्रासू …

जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश सहित शैक्षिक अवसरों का विस्तार करना। इससे पहले 17 जनवरी को कोच राजवंशी जातीय परिषद ने बताया था कि अखिल कोच राजवंशी छात्र संघ (आक्रासू) उन्हें एस्टी का दर्जा देने में राज्य की कथित असमर्थता के कारण 21 जनवरी को 12 घंटे के असम बंद का आह्वान करेगा। छह समुदायों – आदिवासी/चाय जनजाति, ताई अहोम, मोरन, मतक, चुटिया और कोच-राजवंशी – को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा 2014 से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री ने आम चुनाव जीतने के तुरंत बाद एक भाषण में उनकी मांगों पर ध्यान देना वादा किया था। उल्लेखनीय रूप से, सभी छह समुदाय अनुसूचित जनजाति वर्गीकरण के लिए पांच मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनमें केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार अद्विम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगत्व, सामान्य आबादी के साथ संपर्क करने में अनिच्छा और पिछड़ापन शामिल हैं। कथित तौर पर, केंद्र और राज्य सरकारें अन्य जनजातियों की संभावित प्रतिक्रिया की चिंता के कारण निर्णय में देरी कर रही हैं, जिन्होंने नए समावेशन पर नाराजगी व्यक्त की है।

### सीआरपीएफ के नए …

वे असम-मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। 18 जनवरी को जारी आदेश में कहा गया कि कैंबिजट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर, 2027 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 31 दिसंबर, 2024 को अनीश दयाल सिंह का सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विगुल कुमार बल का कार्यवाहक प्रभार संभाल रहे थे। जीपी सिंह असम के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे हैं। वह 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक है और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और उपादाय से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरूआत में 27 जुलाई, 1939 को क्राउन रिजेंट्रैटिव्स पुलिस के रूप में स्थापित, 85 साल के गौरवशाली इतिहास को चिह्नित करते हुए, 28 दिसंबर, 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम पारित होने पर इसे अपना वर्तमान नाम मिला।

### महाकुंभ को एकता…

*भारतीय निर्वाचन आयोग* की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को, बहुत बड़ा स्थान दिया है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा, जिसने समय-समय पर, हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जन-शक्ति को और शक्ति देने के लिए, तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने देशवासियों से ज्यादा संख्या में अपने-अपने मताधिकार का उपयोग करने और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सशक्त बनाने का भी आह्वान किया। मोदी ने *कुंभ, पुष्कर* और *गंगा सागर मेले* का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पर्व सामाजिक मेल-जोल, सद्भाव और एकता को बढ़ाने वाले पर्व हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व भारत के लोगों को भारत की परंपराओं से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ में दक्षिण, पश्चिम और हर कोने से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब और अमीर सब एक हो जाते हैं और सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। एक साथ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें यह भी बताता है कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप में नजर आई है। उन्होंने कहा कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उसकी जड़े और मजबूत होती है और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने *मन की बात* के इस कार्यक्रम में पौष द्वादशी के दिन अयोध्या में राम मंदिर में राम लाल की प्राण-प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का भी जिक्र किया और कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा की यह द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुन: प्रतिष्ठा की द्वादशी बन गई। उन्होंने कहा कि हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए ऐसे ही अपनी विरासत को भी सहेजना है और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। हाल के दिनों में उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से ज्यादा आगे कहा कि आज हमारा देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए ऐसे ही अपनी विरासत को भी सहेजना है और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। हाल के दिनों में उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से ज्यादा आगे कहा कि आज हमारा देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें विकास के रास्ते पर *गणतंत्र दिवस* बहुत विशेष है क्योंकि ये भारतीय गणतंत्र को 75वाँ वर्षगांठ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान संविधान सभा में बसस के दौरान बाबा सहैब

## पूसीरे ने स्थायी गति प्रतिबंध हटाया

**गुवाहाटी ( हिस )**। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पूसीरे) ट्रेनों की सेक्शनल स्पीड बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के उपाय कर रही है। इस संबंध में , जहां भी संभव हो, अस्थायी और स्थायी गति प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न सेक्शनों के लूप लाइनों से होकर चलने वाली ट्रेनों की गति भी बढ़ाई गई है। इसके परिणामस्वरूप ट्रेनों की गति में समग्र वृद्धि हुई है, साथ ही समय की पाबंदी में सुधार हुआ है और यात्रियों को बेहतर ट्रेन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने आज बताया है कि पूसीरे ने दिसंबर, 2024 तक 10 स्थायी गति प्रतिबंधों (पीएसआर) को हटा दिया गया है, उसमें ढील दी गई है। स्थायी गति प्रतिबंधों को हटाने के लिए, ट्रेक ज्यामिति को समायोजित कर कर्व को सामान्य किया गया है, जिससे कर्वचर कम हो गई है और उन सेक्शनों से तेज गति से ट्रेनें गुजर रही है।

## यूके संसद में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर प्रस्ताव पेश

लंदन। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने *भारत के जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार* की 35वीं सालगिरह के अवसर पर संसद में एक प्रस्ताव पेश किया। कंजर्वेंटिव सांसद ब्लैकमैन ने गुरूवार को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया, जो जनवरी 1990 से चला आ रहा है। ईंडीएम एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग ब्रिटिश सांसद किसी विशेष मुद्दे पर संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। ईंडीएम में कहा गया है कि यह सदन जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर सीमा पर इस्लामी आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा किए गए समन्वित हमलों की 35वीं वर्षगांठ को गहरे दुःख और निराशा के साथ याद करता है। प्रस्ताव में

ब्रिटिश हिंदू नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है, जिनके मित्र और परिवार के सदस्य इस सुनियोजित नरसंहार में मारे गए, बलात्कार के शिकार हुए, घायल हुए और जिन्हें बलपूर्वक विस्थापित किया गया। इसमें जम्मू-कश्मीर में पवित्र स्थलों के अपमान की निंदा की गई; न्याय मांगने के अधिकार सहित ब्रिटेन में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली गई। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि (सदन) चिंतित है कि उन्पीडन से बचने के लिए भागे कश्मीरी हिंदू अल्पसंख्यकों को 35 वर्षों में अभी तक न्याय या उनके विरुद्ध किए गए अत्याचारों को स्वीकार नहीं किया गया; सदन ऐसे सीमापार आतंकवादी हमलों को प्रायोजित करने वालों की निंदा करता है। इसमें कहा गया है कि सदन इस बात से चिंतित

## लंदन में असमिया समाज से मिले उद्योग मंत्री बिमल बोरा



**गुवाहाटी ( हिस )** लंदन में *एडवांटेज असम 2.0* के प्रचार के तहत असम के उद्योग मंत्री बिमल बोरा ने ब्रिटेन में प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, वित्त, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान दे रहे प्रवासी असमिया समाज के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री बोरा ने असम को भारत के प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल औद्योगिक नीतियों का भी जिक्र किया। मंत्री बोरा ने असम के दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार होने और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों एवं सौंदर्य के आधार पर औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने ब्रिटिश निवेशकों को असम में निवेश करने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। इस बैठक में मंत्री बिमल बोरा के साथ असम सरकार के विशेष मुख्य सचिव सैयद बुद्दीन अब्बासी, उद्योग विभाग के आयुक्त एनाम चरण कुमार सिंह, पर्यटन विभाग के सचिव पद्मपाणि बोरा और मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी कमल ज्योति भुइँया भी मौजूद थे।

## यूके संसद में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर प्रस्ताव पेश

है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले संगठन ब्रिटेन में फल-फूल रहे हैं; सुरक्षा के प्रति जवाबदेही के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के तहत अलग-अलग राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीरी हिंदुओं द्वारा सामना किये गए नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है; सदन भारत सरकार से आग्रह करता है कि वह जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को मान्यता देने और स्वीकार करने की अपनी दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करे। प्रस्ताव के मुताबिक कि कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू अत्याचारों को स्वीकार किए गए अत्याचारों को स्वीकार नहीं किया गया; सदन ऐसे सीमापार आतंकवादी हमलों को प्रायोजित करने वालों की निंदा करता है। इसमें कहा गया है कि सदन इस बात से चिंतित

रि कॉर्ड नहीं है और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी को मामले के विवरण की जानकारी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जांच अपने शुरुआती चरण में है और आरोपी को आज भी गिरफ्तार किया गया है। इसलिए, जांच की पर्याप्त अवधि के लिए रिमांड मांगने का आधार उचित है। बचाव पक्ष के वकील द्वारा गिरफ्तारी में अवैधता का उठाया गया आधार बिना किसी ठोस तर्क के प्रतीत होता है।

### भारतीय महिला टीम …

दर्ज की थी। इस जीत से ही टीम इंडिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और ये इरादा था हर टीम को ध्वस्त करना। रविवार को हुए फाइनल के साथ ही भारतीय टीम ने अपने इरादों को सच हकीकत में बदलते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया। भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला कड़ा माना जा रहा था क्योंकि उसकी तरह नेपाल भी खो खो की एक दमदार टीम है लेकिन पहले टर्न से ही भारतीय महिलाओं ने दबदबा बनाए रखा। टर्न-1 में भारतीय टीम ने अटेक किया और डिफेंस में नेपाली खिलाड़ियों की गलती का खूब फायदा उठाते हुए 34-0 की बड़ी बैटल के साथ मुकाबले की शुरुआत की। दूसरे टर्न में अटेक की बारी नेपाल की थी और इस टीम ने अपना खाता खोला ही लेकिन भारतीय डिफेंडर्स ने उसे आसानी से पॉइंट्स हासिल नहीं करने दिए। इस तरह दूसरे टर्न के बाद स्कोर 35-24 था। तीसरे टर्न में फिर से भारत को अटेक की बारी आई और इस बार टीम इंडिया ने अपनी बद्धी के निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि शुरुआत इस बार थोड़ी धीमी रही थी लेकिन आधा वक्त बीत जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अटेक की रफ्तार बढ़ाई और स्कोर सीधे 73-24 तक पहुंच गया। यहाँ से नेपाल की वापसी लड़भग नामुस्कार हो गई थी और अंत में यही हुआ। टर्न-4 में नेपाल के अटेक भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं बटोर पाए और मुकाबला 78-40 की स्कोरलाइन के साथ भारत ने जीत लिया।

### राहुल गांधी के …

दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार थाने में शनिवार को बीएनएस के तहत गैर जमानती धाराओं में यह केस दर्ज किया गया। आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। शिकायतकर्ता मोनजीत चैतिया ने आरोप लगाया कि राहुल का बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं का उल्लंघन है। इससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। चैतिया ने दावा किया कि राहुल गांधी के शब्द राज्य के अधिकार को अवैध ठहराने की कोशिश है। इससे एक खतरनाक धारणा तैयार होगी, जो अशांति और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकती है। 15 जनवरी को दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन में राहुल ने मोहन भागवत के एक बयान पर कहा था कि भाजपा, आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अरु हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। दरअसल, 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (बीएसएस) प्रमुख ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा द्विदशी को प्रतिष्ठा के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसे ही भारत का *सत्त्वा स्वतंत्रता* दिवस मानना चाहिए। गौहाटी हाईकोर्ट के वकील और शिकायतकर्ता मोनजीत चैतिया ने कहा कि राहुल गांधी की का बयान बार-बार चुनावों में मिल रही हर की हाताशा का नतीजा है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन वे झूठ फैलाने और विद्रोह भड़काने का काम कर रहे हैं। चैतिया ने कहा, लोकतांत्रिक तरीकों से जनता का विश्वास हासिल करने में नाकाम होने के बाद, वह अब केंद्र सरकार और भारतीय राज्य के विपक्ष अस्तोष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले, बिहार के समस्तीपुर जिले रोसरा कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में परिवाद दायर किया था। परिवादी ने इसे देशद्रोह बताते हुए कोर्ट से आजीवन कारावास की मांग की है। कोर्ट 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। रोसरा थाना क्षेत्र के ही सोनपुर गांव निवासी सुरेंद्र चौधरी के पुत्र मुकेश चौधरी ने यह परिवाद दायर किया है।

### असम एसटीएफ ने …

थाना क्षेत्र के खुड़गांव पार्ट-2 गांव का निवासी है।असम एसटीएफ एक मामले की जांच के दौरान अब तक 12 संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। एसटीएफ के अनुसार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद साद रदी उर्फ शब शेख, जो राजशहरी, बांग्लादेश का निवासी है, को भारत में संधिध गतिविधियों के लिए भेजा था। ये सभी अंतर्राष्ट्रलह बांला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी के करीबी सहयोगी मोहम्मद फरहाद इस्लक के निदेश पर भारत में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के मिशन पर थे। एसटीएफ प्रमुख डॉ. पाथ सारथी महंत के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।



मणिपुर में तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

इंफाल (हिंस)। मणिपुर के पहाड़ी और घाटी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाए गए। इस दौरान थैबल जिले के किलोंग थाना क्षेत्र के उशोइपोकपी की पहाड़ी तलहटी से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। बरामद सामान में एक सिंगल बोर बैरल (स्नाइपर), एक देखी यूपफन, एक अमोघ कार्बोनिंग मैगजीन, तीन .303 मैगजीन, एक एचई हेंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर, 7.62 × 39 मिमी की 5 जीवित गोलियां, .32 की छह जीवित गोलियां, 9 मिमी की एक जीवित गोली, .303 की छह खाली खोलियां, 7.62 मिमी (एसएलआर) की चार खाली खोलियां, 7.62 × 39 मिमी की छह खाली खोलियां, एक ग्रीन स्मोक 80एमके वन, दो स्टेन शेल (एन), तीन टियर स्मोक शेल, तीन टीवाईटी रेंडियो सेट, तीन चार्जर और एक अडेटर शामिल हैं।

## गौशाला में नवनिर्मित श्री राधाकृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चार से

विधी विधान से यज्ञशाला निर्माण कार्य का आज किया गया शुभारंभ

गुवाहाटी। आठगांव स्थित श्री गौहाटी गौशाला परिसर में नवनिर्मित श्री राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सप्त दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन आगामी 4 फरवरी से आरंभ होकर 10 फरवरी 2024 को पूर्ण होगा। प्राण प्रतिष्ठा हेतु रविवार को श्री गौहाटी गौशाला में नवनिर्मित मंदिर के समूह यज्ञशाला निर्माण कार्य का शुभारंभ विधी विधान से वेदाचार्य-धनपती श्री कृष्ण लक्ष्मीकान्तजी पुराणिक सेवनिष्ठ प्रधानाचार्य-असम वेदविद्यालय के आचार्यत्व में यजमान प्रदीप भट्टेच द्वारा सपलीक भूमि पूजन किया गया। इस शुभ अवसर पर श्री गौहाटी गौशाला के ट्रस्टी इनचार्ज डॉ. अशोक धानुका तथा पदाधिकारियों में प्रदीप भुवालका, रमेश कुमार चांक्र, विवेक सांगनेरिया उपस्थित थे। श्री धानुका ने सप्त दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी गौभक्तों को सादर आमंत्रित करते हुए अपनी गरिमामय उपस्थिति हेतु अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि पिछले लंबे समय से गौशाला परिसर में राधा कृष्ण मंदिर जरूरत महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। इस भव्य मंदिर को सुरेंद्र कुमार-प्रदीप कुमार भट्टेच परिवार के सहयोग से निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है।



## असम दल के राष्ट्रीय खेल जर्सी का विमोचन और वितरण असम का पहला दल 21 जनवरी को उत्तराखंड के लिए होगा रवाना

गुवाहाटी (हिंस)। आगामी राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले असम दल की जर्सी का रविवार को गुवाहाटी के सरसुजाई खेल परिसर में आधिकारिक रूप से विमोचन और वितरण किया गया। असम ओलंपिक संघ और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए असम टीम को औपचारिक रूप से शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और असम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नई पीढ़ी की सफलताएं राष्ट्र को गौरवान्वित करती हैं। इसी तरह खिलाड़ियों की उपलब्धियां समाज को प्रेरित करती हैं। असम के खिलाड़ियों ने अपनी सफलता से देश और राज्य को गौरवान्वित किया है और आगामी राष्ट्रीय खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन



करेंगे। उन्होंने असम टीम को राष्ट्रीय खेलों में हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा को धन्यवाद दिया। संघ के वरिष्ठ

दिया जाएगा, ताकि कोई खिलाड़ी मानसिक रूप से हतोत्साहित न हो। दूसरे उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जयंत मल्लबरुवा ने कहा कि असम सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल में करियर बनाने के लिए नई पीढ़ी को हर अवसर प्रदान करेगी। असम ओलंपिक संघ के सचिव लक्ष्य कुंवर ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में लगभग 300 खिलाड़ियों और अधिकारियों का दल भेजेगा। इस दल में 237 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें ओलंपियन, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के पदक विजेता तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के लगभग 20 खिलाड़ी शामिल हैं। कुंवर ने विश्वास जताया कि असम इस बार

50 से अधिक पदक जीत सकता है। कार्यक्रम में खेल मंत्री नंदिता गालोंसा, खेल निदेशक प्रदीप तिमुंग, असम दल के चीफ मिशन अभिजीत भट्टाचार्य, कोषाध्यक्ष अशोक भराती और गायक भूगु कश्यप मौजूद थे। खिलाड़ियों की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता नयनमणि सैकिया ने किट प्राप्त किया। असम का ट्रायथलॉन दल 21 जनवरी को पहला दल बनकर उत्तराखंड के लिए रवाना होगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 28 जनवरी को होगा, लेकिन ट्रायथलॉन खेल 25 जनवरी से शुरू होगा। कार्यक्रम में असम ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय खेलों के लिए डिप्टी चीफ मिशन के रूप में संघ के संयुक्त सचिव निरंजन सैकिया और हॉरेंद्र गोर्गोई के नाम को घोषणा की।

## प्रसिद्धि परांगमुख गिरीश चंद्र कलिता ग्रंथ का राज्यपाल रमेन डेका ने किया विमोचन

गुवाहाटी (हिंस)। गिरीश चंद्र कलिता के जीवन और कर्म को जीवंत रखने के उद्देश्य से आज गुवाहाटी के पलटन बाजार स्थित शंकरदेव सेवा समिति प्रेक्षागृह में उनके जीवन पर आधारित ग्रंथ प्रसिद्धि परांगमुख गिरीश चंद्र कलिता का विमोचन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने ग्रंथ का अनावरण किया। ग्रंथ विमोचन के दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने गिरीश चंद्र कलिता के साथ बिताए गए समय की स्मृतियों को साझा किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के असम क्षेत्र के क्षेत्र संचालक डॉ. उमेश चक्रवर्ती और वरिष्ठ प्रचारक शशिकांत चौधवाले ने गिरीश चंद्र कलिता के योगदान और उनकी कार्यकुशलता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन दिलीप शर्मा ने किया, और प्रारंभिक संबोधन उनके सहयोगी प्राणतोष रॉय ने दिया। सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर असम क्षेत्र संचालक डॉ. भूपेश शर्मा, गुवाहाटी नगर निगम के मेयर मुंगांक शर्मागुप्ता सहित गिरीश चंद्र कलिता के सैकड़ों अनुयायी उपस्थित थे। गिरीश चंद्र कलिता एक प्रशंसनीय मूक सामाजिक संगठनकर्ता थे। कम उम्र से ही नैतिकता की भावना के साथ जीवन का निर्माण करने वाले कलिता ने 1946 में असम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम की शुरुआत के बाद से आजीवन एक कार्यकर्ता के रूप में अत्यंत समर्पण और ईमानदारी के साथ सेवा की है। महात्मा गांधी की हत्या के लिए 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब कलिता को छह महीने तक जेल में रखा गया था। बाद में संघ की प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, भारतीय मजदूर संघ, उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन एकजुटता यज्ञ यात्रा जैसे संगठनों के लिए काम किया।

## प्रधानमंत्री ने की मन की बात में नगांव के हाथीबंधु की प्रशंसा

गुवाहाटी (हिंस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रैडियो कार्यक्रम मन की बात के आज के एपिसोड में असम के सामाजिक संगठन हाथीबंधु द्वारा हाथी और मानव के बीच संघर्ष को कम करने के लिए उठाए गए दीर्घकालिक प्रयासों की सराहना की। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को साझा किया कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में असम के हाथीबंधु पहल का उल्लेख किया था। यह पहल मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक प्राकृतिक समाधान है। नगांव और कार्बी आंगलांग में 30 हेक्टेयर निजी भूमि पर हाथियों के लिए उपयुक्त फसलें उगाई गई हैं। इन फसलों ने हाथियों के लिए भोजन का आसान व्यवस्था सुनिश्चित की है और जनता को फसलों को नुकसान होने की घटनाओं को कम करने में मदद की है। लगभग आठ हजार लोग इस पहल से लाभान्वित हुए हैं, जिससे मानव और हाथी दोनों के लिए लाभदायक स्थिति बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री का डॉ. शर्मा ने अपना आभार व्यक्त किया। असम के नगांव जिले के चापानाला रंगगांव कार्बी गांव के इस संगठन की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने पर असम भाजपा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। भाजपा के प्रवक्ता रंजीव कुमार शर्मा ने कहा कि यह प्रयास सृष्टि के साथ सह-अस्तित्व के भारतीय दर्शन को फिर से प्रदर्शित करता है। हाथीबंधु ने नापिकर चास और धान की खेती कर हाथियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का अभिनव समाधान पेश किया है। इससे फसलों को हाथियों द्वारा नष्ट किए जाने की समस्या में कमी आई है। संगठन के संस्थापक प्रदीप कुमार भुइयां और विनोद दुलु बोरा को इस दिशा में प्रेरणादायक कार्य के लिए असम भाजपा ने बधाई दी। इसके साथ ही, असम समेत पूरे देश में लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात को वृथ् स्तर पर सुना।

## होजाई जिले में गुणोत्सव का आयोजन शुरू



होजाई (निर्स)। होजाई जिले के जिला आयुक्त विद्युत विकास भगवती ने शनिवार को जिला मुख्यालय श्रीमंत शंकरदेव नगर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से जानकारी दी कि होजाई जिले के 971 स्कूलों में 20 जनवरी से 22 जनवरी तक गुणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुणोत्सव में जिले के कुल 1, 27, 413 छात्र शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में लगभग 5, 656 से अधिक जनशक्ति तैनात की जाएगी, जहां नगांव, दिसपुर से शिक्षाविद, प्रशिक्षित बाहरी

मूल्यांकनकर्ता स्कूलों का दौरा करेंगे और स्कूलों के कक्षा 1 से 9 तक के शिक्षण वातावरण और शैक्षिक बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन से हमें जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि विधायक भी स्कूल का दौरा करेंगे। जिला आयुक्त ने जोर देकर कहा कि शिक्षा विभाग हमेशा से उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। उन्होंने कहा कि वे अधिक से अधिक स्कूलों का दौरा करने का प्रयास करेंगे।

## मारवाड़ी हॉस्पिटल ने वशिष्ठ स्थित अंध विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया



गुवाहाटी (विभास)। मारवाड़ी अस्पताल ने जेसीआई गुवाहाटी एंजेलस के साथ मिलकर अंध विद्यालय बशिष्ठ में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर के लाभार्थियों में से अधिकांश अंध विद्यालय के छात्र थे। साथ ही जेसीआई एंजेलस के सहयोग से छात्रों की दंत जांच भी की गई। शिविर वास्तव में मारवाड़ी

अस्पताल और जेसीआई एंजेलस द्वारा सहयोग से इस समाज में असाहाय नेत्रहीन छात्रों की सेवा और सहायता के लिए एक पहल थी। कुछ आंशिक रूप से अंधे हैं तो कुछ पूरी तरह से अंधे हैं लेकिन उनके लिए जीवन आसान नहीं है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दंत जांच के साथ-साथ स्कूल के नेत्रहीन छात्रों के बीच खेल और गतिविधियां

भी आयोजित की गईं। जेसीआई गुवाहाटी के सदस्यों द्वारा उन नेत्रहीन छात्रों को मिठाई और भोजन भी वितरित किया गया। छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, मुफ्त डॉक्टर परामर्श निःशुल्क शिविर का मुख्य आकर्षण थे। मारवाड़ी अस्पताल की मेडिकल टीम के साथ, जेसीआई गुवाहाटी की एक टीम भी कार्यक्रम में मौजूद थी और उन्होंने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। अध्यक्ष एचजीएफ रोशनी वैद, चार्टर्ड अध्यक्ष जेसीआई पीपीपी रश्मि खाट्टवाल और पूर्व अध्यक्ष जेसीआई सेन सोनिया सारडा शिविर में मौजूद थीं। उन्होंने गरीब और असाहाय छात्रों की मदद करके वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने छात्रों को किसी भी संकट की स्थिति के दौरान सभी आवश्यक कार्रवायों और आवश्यकताओं में मदद करने का वादा किया। मारवाड़ी अस्पताल का लक्ष्य निकट भविष्य में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक मुफ्त स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना है ताकि जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवा और मुफ्त इलाज मिल सके।

## आनंदराम बरुवा को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने महान शिक्षाविद, साहित्यकार और प्रशासक आनंदराम बरुवा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि जातीय जीवन को समृद्ध बनाने वाले असम के सपूत आनंदराम बरुवा आ शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक क्षेत्र के एक चमकते सितारे थे। पंडित आनंदराम बरुवा पहले असमिया आईसीएस अधिकारी होने के साथ ही संस्कृत भाषा और साहित्य में भी उनका अतुलनीय योगदान है। असम के इस महान व्यक्तित्व का पांडित्य, प्रशासनिक दक्षता और देशभक्ति हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

## श्रीमंत शंकरदेव संघ, रंगामाटी पश्चिम प्राथमिक शाखा की आतिथ्य में पाभै आंचलिक शाखा का 60वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित

विश्वनाथ (विभास)। श्रीमंत शंकरदेव संघ रंगामाटी पश्चिम प्राथमिक शाखा की आतिथ्य में पाभै बर नामघर में पाभै क्षेत्रीय शाखा का 60वां वार्षिक सम्मेलन आज संपन्न हुआ। यह सत्र कल से दो दिवसीय कार्यक्रम के साथ पाभै बर नामघर प्रांगण में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुरुआत सुबह धर्मध्वजा के उतोलन के साथ हुई। इसके बाद नाम प्रसंग होता है। दोपहर में उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पाभै आंचलिक शाखा के अध्यक्ष नबीन दास ने की। बैठक का उद्घाटन संघ की विश्वनाथ जिला शाखा के पूर्व अध्यक्ष सरुम बोरा ने किया। बैठक में निर्दिष्ट वक्ता के रूप में कृति शिक्षक रंजीत हजारीका उपस्थित थे, जिन्होंने श्रीमंत शंकरदेव के आदर्शों और



कार्यों के बारे में बात की। बैठक में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रंजन गोर्गोई और वरिष्ठ पत्रकार निरंजन हजारीका विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता और शाखा के पूर्व अध्यक्ष रुद्र बोरा, रसेश्वर खांडंड, स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रदीप खांडंड, सोमेश्वर हजारीका और अन्य उपस्थित थे। समारोह के बाद शान्तनु भराती ने आभार व्यक्त किया। बैठक का पहला दिन कल कार्य-निष्पादन सभा और प्रतिनिधि सभा आयोजित किया गया था। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रुद्र बोरा ने की और समारोह समिति के अध्यक्ष रसेश्वर खांडंड ने सभा का उद्घोषण किया।

## गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पान बजार थाना व नागरिक समाज ने स्वच्छता अभियान चलाया

गुवाहाटी (विभास)। पान बाजार थाना और नागरिक समाज के सौजन्य से आगामी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में फैंसी बाजार इलाके में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सेंट्रल जोन की एडीसीपी शांभवी मिश्रा, सेंट्रल जोन के एसीपी अनिल महतो, पान बाजार थाना के नव नियुक्त थाना प्रभारी शंकर ज्योति नाथ, फैंसी बाजार थाना प्रभारी प्रणव ज्योति डेका ने अभियान की शुरुआत की। जो फैंसी बाजार शनि मंदिर चौराहे से शुरू होकर कमर पट्टी तक चला। इस अवसर पर एसीपी अनिल महतो ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने की यह मुहिम चलाई गई है। जो स्थानीय नागरिक समाज के सहयोग से संपन्न हो रहा है। एसीपी महतो ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए 25 और 26 जनवरी को



सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रहना होगा। कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में दे। इस अवसर पर पार्षद प्रमोद स्वामी, सिन्धुमा मजुमदार के अलावा मून गोस्वामी, जयप्रकाश गोर्यका, विशाल भारती, प्रियम जालान, सुशील व्यास, आदर्श शर्मा, संपत मिश्र, संजय काबरा, हर्ष सांगनेरिया के अलावा कई व्यक्ति

## सड़क सुरक्षा सप्ताह पर आर्य विद्यापीठ महाविद्यालय में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

गुवाहाटी। कामरूप महानगर जिला नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में और कामरूप महानगर जिला परिवहन विभाग के सहयोग से शनिवार को आर्य विद्यापीठ महाविद्यालय में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। सनद रहे कि भारत सरकार के युवा परिक्रमा और खेल मंत्रालय के अधीनस्थ माई भारत नेहरू युवा केंद्र ने देश भर में शुरू किए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत परिवहन विभाग के सहयोग पर नेहरू युवा केंद्र 17 से 23 जनवरी तक एक विशेष जागरूकता बैठक आयोजित कर रहा है। आर्य विद्यापीठ महाविद्यालय के गुरु नानक सभागार में कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक प्रथमेश चक्रवर्ती ने किया। इस मौके पर श्री चक्रवर्ती ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के माई भारत अभियान के तहत एक जन जागरूकता अभियान है। इस कार्यक्रम का आयोजन छात्र-छात्राओं और युवाओं के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को एक आदत बनाकर समाज के सभी स्तरों पर व्यापक जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। विशेष जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कामरूप महानगर जिले के अतिरिक्त जिला



आयुक्त अर्जात कुमार शर्मा के आलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) के 31 नंबर वार्ड की पार्षद रत्ना सिंह, जिला परिवहन विभाग के सहायक आयुक्त गौतम दास, आर्य विद्यापीठ महाविद्यालय सहायक अध्यापिका डॉ. पापरी देवी, भोलालाम बरुवा महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सत्यन्रत बरुवा ने अपने अपने भाषण में कहा

कि देशभर के साथ-साथ असम में भी सड़क दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष की आयु के अधिक लोग मारे जाते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात कानूनों के विभिन्न पहलुओं, सड़क सुरक्षा, यातायात दुर्घटनाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पर अधिक जोर दिया गया है। यातायात कानून, सड़क सुरक्षा, नियंत्रित गति से वाहन चलाना, यातायात संकेतों का पालन करना, दो पहिया,

चार पहिया वाहनों के चालकों और यात्रियों द्वारा हेलमेट पहनना, वाहनों के चालक और यात्री सीटबेल्ट का उपयोग करना, चालकों द्वारा नशे में वाहन नहीं चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना आदि विभिन्न सड़क सुरक्षा जागरूकता नीतियों का पालन करने का आग्रह किया। जीवन की सुरक्षा, वाहनों की अनियंत्रित गति से बचने जैसी नीतियों का पालन करके दुर्घटना मुक्त राज्य बनाने के लिए आग्रह किया। जागरूकता सप्ताह में सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन और चित्रकन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। महाविद्यालय में आयोजित विशेष जागरूकता बैठक में नुकड़-नाटक व मिनांक डेका द्वारा निर्देशित मुखाभिनय आकर्षण का केंद्र रहा। युवा केंद्र के अधिकारी सुरेश शुक्ल वैद्य ने सप्ताह भर चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में सहयोग के लिए उपस्थित 500 से अधिक छात्र-छात्राओं, युवक युवतियों और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों आभार करने के साथ ही मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों और सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। आगामी 23 जनवरी तक महानगर के सभी स्थानों में इस तरह के जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।







# दो लाख नौकरियां देना दूर, सीईटी तक नहीं करवा रही सरकार : हुड्डा

पूर्व सीएम बोले, वादे से मुकरी बीजेपी, कौशल कर्मियों को किया जा रहा नौकरी से बाहर

**रोहतक (हिंस)**। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भाजपा अपनी चिर-परिचित नीति के तहत बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। दो लाख पक्की नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी सीईटी तक नहीं करवा रही, भर्तियों के इंतजार में ओवर एज हो रहे लाखों बेरोजगार युवा लगातार सीईटी और नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह सरकार द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है। रविवार को पूर्व सीएम हुड्डा ने शहर में कई लोगों से मुलाकात की और सभी का हालचाल जाना और सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी एक लाख बीस हजार कर्मचारियों को पक्का करने का एलान किया था। इतना ही नहीं बीजेपी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ झूठ भी फलाया। उसने झूठ बोला कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कौशल निगम को खत्म करके सभी कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने अपने भर्तिफेस्टों में सभी कौशल कर्मियों को नियमित करने और उचित वेतन बढ़ोतरी का वादा किया था। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के झूठ की सच्चाई सबके सामने आ गई। अपने ही वादे से मुकरी हुए बीजेपी ने सरकार बनते ही कौशल



निगम कर्मियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। एक-एक करके हर विभाग से सरकार ने कौशल निगम कर्मियों को छटनी शुरू कर दी है। कच्ची नौकरी और न्यूनतम वेतन के सहारे गुजर-बसर कर रहे कर्मियों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं इस सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगे 16000 कर्मियों

के साथ भी अन्याय किया है। सरकार ने उनकी वेतन वृद्धि और अन्य लाभ देने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। एक-एक करके बीजेपी सभी वर्गों को अपने निशाने पर ले रही है। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करती है, उसे असल में जनसरोकर से कोई अपराधिक गतिविधि घटित ना हो।

घुमंतू समाज के महापड़ाव में सामाजिक कुरीतियां दूर करने का आव्हान

**जयपुर (हिंस)**। जयपुर में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में हुए महापड़ाव में घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जाति के हजारों नागरिकों तथा उनके सैकड़ों पंच पट्टेनों ने समाज से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का आव्हान करते हुए राजस्थान के हर बड़े शहर में जहां घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जाति के लोग बहुतायत से रहते हैं। उन्हें यथा स्थान पर पहुँचाने एवं सड़कों पर जीवन व्यतीत कर रहे उन प्रत्येक शहरों में घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त समाज के लिए अलग से आदेश निकालकर दस हजार फ्लैट देने एवं जयपुर में तीस हजार फ्लैट तथा 100 गज के प्लॉट की मांग की है।

## कैबिनेट मंत्री दिलावर ने देश में 10 हजार बच्चों को किया निःशुल्क स्वेटर का वितरण



**जयपुर (हिंस)**। कंकपकती सर्दी से बीमार बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ पाते हैं और उनकी

पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चों को राहत दिलाने के लिए राजस्थान के कुछ युवाओं द्वारा वर्ष 2015 में

सुहानी सर्दी आंदोलन नाम के नवाचार को प्रारंभ किया था। इसके तहत प्रतिवर्ष 10 हजार बच्चों को निःशुल्क स्वेटर देने का संकल्प किया गया था, जिसमें सरकारी स्कूलों के पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य लिया गया था। पिछले नौ वर्षों में राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में 700 से अधिक गांवों के स्कूलों तक सुहानी सर्दी आंदोलन के स्वेटर 90 हजार मासूम बच्चों तक पहुंच चुके हैं। सुहानी सर्दी आंदोलन के दसवें वर्ष में ही आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राथमिकता दी गई। जिसमें 9,609 जरूरतमंद बच्चों को नए स्वेटर वितरित किए गए। कोटा के रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी में रविवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय के 391 बच्चों को वितरण करके सुहानी सर्दी आंदोलन के लिए 10वें वर्ष के कार्यक्रम का समापन मदन दिलावर की उपस्थिति में किया गया।

## संघ एंटी मुस्लिम नहीं, हिंदुत्व का समर्थक है : निम्बाराम

**अजमेर (हिंस)**। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक सदी की परंपरा के उत्सव के तहत रविवार को भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस संचलन में 20 घोषों की मधुर धुनों पर करीब पांच हजार स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाए। कार्यक्रम का शुरुआत तोपदड़ स्थित खेल मैदान से हुई, जहां पहले बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि आज देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि संघ एंटी मुस्लिम है, जबकि संघ में सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले स्वयंसेवक सक्रिय हैं। सनातन संस्कृति में सभी धर्मों के लोगों का मान सम्मान होता है। ऐसे में संघ एंटी मुस्लिम हो ही नहीं सकता। लेकिन संघ हिंदुत्व का समर्थक है। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि देश में सिर्फ हिंदू ही रहें। असल में हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। जिसमें सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होता है। हिंदू कभी भी दूसरे धर्म के लोगों पर आक्रमण नहीं करता। उन्होंने मौजूदा हालातों में चार तरह की सोच वाले हिंदू बताए। एक जो स्वयं को हिंदू होने पर गर्व करता है। दो हिंदू तो है, लेकिन हिंदू होने का गर्व नहीं। तीन धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाला। तीसरी सोच वाला हिंदू समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे लोग धर्मनिरपेक्षता की आड़ में भारत की सनातन संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। चौथे नंबर पर वे हिंदू आते हैं जिन्हें अपने बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे हिंदुओं के पास न तो अपना घर है और न ही अपना मंदिर। ऐसे हिंदू घुमंतू प्रवृत्ति के होते हैं। संघ ने पिछले कुछ वर्षों में इन घुमंतू हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया है और

उन्हें उनके वंश की जानकारी भी उपलब्ध करवाई है। यही वजह है कि आज ऐसे घुमंतू स्वयं को हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं। अकेले राजस्थान में 14 आवासीय छात्रावास चल रहे हैं, जिनमें घुमंतू जातियों के परिवारों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1925 में जब डॉ. हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी, तब देश विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था। तब यह माना गया कि हेडगेवार के बाद संघ समाप्त हो जाएगा, लेकिन हेडगेवार के बाद जिन लोगों ने संघ की कमान संभाली उसका परिणाम देश के सामने है। संघ के हिंदू समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यही वह है कि आज हिंदू समाज के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि जब लक्ष्य पास होता है तो साथ की गति को और बढ़ाते हैं जो जरूरत होती है। जिस प्रकार एक धावक शुरू के चक्र में धीमी गति से दौड़ता है लेकिन जब अंतिम चक्र आता है तो दौड़ की गति को तेज करता है। ताकि जीत का लक्ष्य हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि हम हिंदू समाज को एकजुट करने की बात अपने घर से ही शुरू करें। इसके लिए उन्होंने पर्यावरण, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और कुटुंब विचार पर जो दिया। निम्बाराम ने कहा कि अल्हाबाद वर्ष जब हम सौ साल पूरे करेंगे, तब स्वयंसेवकों को भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ शाखाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। हर बस्ती में संघ की शाखा लगनी चाहिए। निम्बाराम ने कहा कि बीआर अंबेडकर भी संघ की कार्यप्रणाली के प्रशंसक रहे हैं। एक बार मुंबई में पांच सौ स्वयंसेवकों के बीच डॉ. हेडगेवार के साथ अंबेडकर भी मौजूद थे। अंबेडकर ने स्वयंसेवकों से पूछा कि कितने स्वयंसेवक अस्पृशीय (पिछड़ी जाति) है।

## मुख्यमंत्री भजनलाल ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी



**प्रयागराज (हिंस)**। उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ है। देश-दुनिया से श्रद्धालु संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने रविवार सेवरे संगम घाट पहुंचकर पवित्र स्नान

किया। सीएम ने लेटे हुए हनुमान जी महाराज के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा की। इसके बाद सीएम ने प्रदेश के मंडयम का जायजा लेकर संतो का सम्मान किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट भी डाली। इसके पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने शनिवार की देर रात राजस्थान पैवेलियन का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए पांडालों और प्रचार-प्रसार से जुड़ी आकर्षक फोटो और रोचक ऑडियो-विजुअल सामग्री को देखा। साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने की शानदार व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता जताई। इस दौरान राजस्थान के पूर्व संगठन महामंत्री और वर्तमान में तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि प्रयागराज में आस्था, श्रद्धा और एकता के महासमागम महाकुंभ-2025 में पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की पावन डुबकी लगाने का अनुभूत सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, लेटे हुए हनुमान महाराज के दिव्य दर्शन एवं पूर्ण विधि-विधान से पूजन-अर्चना कर समस्त प्रशंशासिद्धों की सुख-समृद्धि, मंगलमय एवं आरोग्यमय जीवन के लिए प्रार्थना की।

## एक देश एक चुनाव की आड़ में संविधान को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास : बख्शी

**हिसार (हिंस)**। डेमोक्रेटिक फोरम हिसार की ओर से जाट धर्मशाला में एक देश एक चुनाव विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट अफसर की बख्शी सेमिनार के मुख्य वक्ता रहे जबकि सेमिनार की अध्यक्षता ओम के संरक्षक डाक्टर सतीश कालरा व डाक्टर रमेश सिद्ध ने की। डॉ. बलजीत भ्यान, एमएल सहगल, शकुंतला जाखड़, सतबीर धायल व एडवोकेट प्रेम ने भी सेमिनार में अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन फोरम के सचिव सत्यवीर सिंह ने किया। वक्ताओं ने रविवार को आयोजित इस सेमिनार में कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष 16 दिसंबर को लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक व केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इसी विषय से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विषय में सत्तारूढ़ केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की 18626 पेज की विस्तृत रिपोर्ट में लोकसभा व समस्त राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने व इसके 100 दिन के अंदर सभी स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की सिफारिश की गई है। इसी से संबंधित दो विधेयकों के माध्यम से 15वां संविधान संशोधन भी किए जाने हैं। फिलहाल दो तिहाई समर्थन के अभाव में विधेयक के भारी विरोध के बीच इसे समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का सौंपा गया है। एक देश एक चुनाव मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्य वक्ता ने अपने संबोधन में बताया कि सत्तारूढ़ दल द्वारा एक देश एक चुनाव की आड़ में देश के संविधान में प्रदत्त संघीय ढांचे को छिन्न-भिन्न करने, बहु दलीय चुनाव प्रणाली को जगह एक दल एक नेता को स्थापित करने का प्रयास है। दरअसल लोकसभा व विधानसभा के एक साथ चुनाव करवाने में ही दोगुना से ज्यादा वोटिंग मशीन चाहिए। रैशनरी, चुनावी अमला, सुरक्षा आदि का खर्च भी लगभग समान ही रहेगा। चुनाव में भारी भरकम पैसा खर्च करने वाले सत्तारूढ़ दल को चुनावी खर्च बढ़ाने की बात करना शोभा नहीं देता।

## बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए सैन्य कार्रवाही हो : यति नरसिंहानंद गिरी



**वाराणसी (हिंस)**। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी रविवार को वाराणसी पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में शीप सनातनी धर्मगुरुओं पर सनातन धर्म की बजाए व्यक्तिगत वैभव दिखाने का आरोप लगाने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई। गोलघर स्थित पराडकर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान महामंडलेश्वर ने सरकार से मांग किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी

अफगानिस्तान पहले ही हिंदू विहिन हो चुका है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश ही बचा है। दोनों देशों में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कत्लेआम हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व.इंदिरा गांधी की सराहना करते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सख्त कदम उठाते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा दिया था। ऐसा ही कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठाना चाहिए। बांग्लादेश पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे हिंदुओं को अलग कर अलग राष्ट्र बनाना चाहिए। महामंडलेश्वर ने मुसलमान

जनसंख्या पर नियंत्रण की बात उठाई और कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हुई है। लेकिन अभी तक भारत में नहीं हो पाया है। भारत में भी इस्त्राडल जैसी नीति अपनाने की जरूरत है। एक सवाल के जबाब में महामंडलेश्वर ने कहा कि भारत के हर बड़ी मस्जिदों के नीचे मंदिर है। वार्ता के दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड की भी निशाने पर लिया। महामंडलेश्वर ने कहा कि ये हर जमीन पर दावा जताते हैं। अभी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के लिए वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन का इस्तेमाल करने का दावा किया। इस दावे पर कड़ा एतराज जताते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि लाखों साल से महाकुंभ का अनवरत आयोजन हो रहा है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जबाब में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ का ही समर्थन करता हूं, मेरा सपना है कि वह आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री भी बने। महामंडलेश्वर ने बनारस के लोगों से भी कहा कि आप यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन कर संसद में भेजते हो। मेरा बनारस से निवेदन है कि बांग्लादेश में इस्लामी जेहादी वहां के हिंदुओं को चुन-चुन कर मारने के साथ लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। बीते अगस्त माह से ही वहां नरसंहार हो रहा है।

## विप्र समाज नहीं भारत की संस्कृति है : राज्यपाल



**छत्रपति संभाजी नगर / जयपुर (हिंस)**। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में विप्र फाउंडेशन, विभागीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि जो समाज महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और सामाजिक समरसता के लिए कार्य करता है, वहीं निरंतर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि विप्र समाज नहीं भारत की संस्कृति है। जो ब्रह्म यानी अंतिम सत्य को जानता है, वहीं विप्र है। बागडे ने वैदिक काल से ब्राह्मणों के रहे गौरवमई अतीत को स्मरण करते हुए कहा कि जब-जब समाज में अंधकार छाया है, धर्ती पर विधर्मियों के कारण संकट आए हैं तब ब्राह्मणों ने आगे आकर समाज को आलोक पथ दिखाते का कार्य किया है। उन्होंने विप्र समाज द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और कहा कि संपूर्ण मानता के कल्याण के लिए समाज निरंतर कार्य करे। उन्होंने भगवान परशुराम और उनके तेज को स्मरण करते हुए महापरा, बंगाल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि में विप्र समाज संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों को महत्वपूर्ण बताया।

## इटली के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात रामायण की चौपाई और शिव तांडव की दी प्रस्तुति

**लखनऊ (हिंस)**। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रविवार को इटली से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रामायण की चौपाई, शिव तांडव और कई भजनों की प्रस्तुतियां दीं। इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए। उल्लेखनीय है कि इटली में ध्यान एवं योग सेंटर के संस्थापक एवं प्रशिक्षक माही गुरु के नेतृत्व में उनके अनुयायियों ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन न केवल भारतीयों बल्कि विदेशी मेहमानों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में इटली से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने संगम में पवित्र स्नान किया और भारतीय परम्पराओं का गहराई से अनुभव किया।



प्रतिनिधि मंडल की महिलाओं ने महाकुंभ में नाग साधुओं, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनकर आध्यात्मिक अनुभव हासिल किया। महाकुंभ से लौटने के बाद प्रतिनिधि मंडल की महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपने अनुभव साझा किए। महिलाओं ने बताया कि महाकुंभ का आयोजन न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि

यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रदर्शन भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मुलाकात के दौरान इटली से आई महिलाओं ने रामायण की चौपाई, शिव तांडव और कई भजन प्रस्तुत किए। महिलाओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति की गहराई और इसकी आध्यात्मिकता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है।

## कुंभ हमारी सांस्कृतिक धरोहरों व परंपराओं से संपूर्ण विश्व को करा रहा साक्षात्कार : योगी

**महाकुंभ नगर (हिंस)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्ष के पहले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने महाकुंभ का भी प्रमुखता से जिक्र किया और एक बार फिर इसे एकता का महाकुंभ बताया। महाकुंभ पर पीएम मोदी की चर्चा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत की एकात्मता के जीवंत प्रतीक, आध्यात्मिकता, समता और समरसता के महासमागम महाकुंभ के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा कर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का महोत्सव महाकुंभ 2025 प्रयागराज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों व परंपराओं से आज संपूर्ण विश्व को साक्षात्कार करा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ में युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के लिए गर्व के साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति के अनुगमन का संदेश उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में त्रिवेणी तट पर लगे महाकुंभ पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का श्रीगणेश हो चुका है। चिन्तनशील जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता, समरसता का असाधारण संगम दिखाई दे रहा है। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग बन रहे हैं। ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मानता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुटते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं।

## बिहार के कटिहार नाव हादसे में तीन लोगों की मौत, सात लापता

**कटिहार (हिंस)**। बिहार में कटिहार जिले के अमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के गोला घाट पर रविवार सुबह दर्दनाक नाव हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अमदाबाद निवासी पवन मंडल (65वर्ष) पिता बन्तम मंडल, प्राणपुर निवासी सुधीर मंडल (70वर्ष) अज्ञानगार निवासी भोली देवी का तीन वर्षीय पुत्र शामिल है। समाचार लिखे जाने तक सात नाव सवार लोग लापता हैं। लगभग 18 यात्रियों को लेकर एक नाव मनिहारी अनुमंडल के अमदाबाद ब्लॉक के दक्षिण करीमुल्लापुर मेघू टोला से सकरी (झारखंड) जा रही थी। मुख्यमंत्री ने जताया शोक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार जिले के अमदाबाद में गंगा नदी में नाव डूबने से 03 लोगों की हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह घटना अत्यंत दुःख है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में लापता अन्य लोगों की समुचित खोजबीन जारी रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की इश्वर से प्रार्थना की है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने बताया नाव हादसे के बाद आठ लोगों को स्थानीय गोरखार एवं एसडीआरएफ टीम द्वारा बचाव कर लिया गया है एवं शेष का बचाव और तलाशी अभियान जारी है। जिन



लोगों को बचा लिया गया है उनका इलाज चल रहा है। बचाए गए लोगों के अनुभार सात और लोग लापता हैं। सात में से दो नदी के विपरीत किनारे यानी गदाई दियारा में पहुंच गए हैं। मनिहारी एसडीएम ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम बाकी पांच लोगों को लापता होने की सूचना के साथ उनका पता लगाने व बचाव करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि अमदाबाद सीओ और एसएचओ मेघू टोला में राहत अभियान की निगरानी कर रहे हैं। मृत व्यक्तियों के परिवार को आपदा विभाग के नियमानुसार मुआवजा देने हेतु संबंधित को निर्देश दिया गया है और लापता व्यक्तियों के लिए खोज व बचाव हेतु एसडीआरएफ द्वारा अभियान जारी है।



## सर्राफा बाजार में कमजोरी के रुख से सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी फीकी पड़ी चमक

नई दिल्ली। लगातार तीन दिन की तेजी के बाद घरेलू सर्राफा बाजार में गिरावट का रुख बना हुआ है। सोने की कीमत में 160 रुपये से लेकर 170 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की कमजोरी दर्ज की गई है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी 500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। सोने की कीमत में आई कमजोरी के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24

कैरेट सोना 81,260 रुपये से लेकर 81,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 74,500 रुपये से लेकर 74,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में आई कमजोरी के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में ये चमकीली धातु 96,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट

सोना 81,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 74,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 81,110 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 74,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 81,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 74,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 81,110 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 74,350 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 81,110 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 74,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।



### न्यूज़ ब्रीफ

#### बाजारों में ब्रांडेड खाद्य तेलों में मिलावट



मुंबई। नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनियां खाद्य तेलों में मिलावट करके खुलेआम मिलावटी तेल बेच रही हैं। खाद्य तेलों में बड़े पैमाने पर ब्रान आयल मिलाया जा रहा है। इसे उपभोक्ताओं को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। धान की भूसी का तेल सबसे ज्यादा खाद्य तेल में मिलाकर, ब्रांडेड कंपनियों ब्रांड के नाम से महंगे दामों पर बेच रही हैं। सरसों, सोयाबीन और मूंगफली के तेल से ब्रान आयल 40 से लेकर 60 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होता है। सरकार ने ब्लेंडिंग कानून में बड़ी कंपनियों के लिए बदलाव कर दिए हैं। इसका फायदा बड़ी-बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियां अंग्रेजी में लेवल छपवाती हैं। उसमें बहुत छोटे अक्षरों में मल्टी सोर्स आयल लिखा रहता है। जो उपभोक्ता ब्रांडेड सोयाबीन, सरसों और मूंगफली का तेल खरीदता है। उसे मालूम ही नहीं होता है, वह मिलावटी तेल खरीद रहा है। वह भी महंगे दामों पर खरीद रहा है। केंद्र सरकार ने 3 फरवरी 2023 को तेल के ब्लेंडिंग कानून में बदलाव किए हैं। नए बदलाव के अनुसार अब कंपनियों को 20 फीसदी तक दूसरे तेल की मिलावट करने की अनुमति दी गई है। ब्रांडेड कंपनियों द्वारा जो सरसों, मूंगफली और सोयाबीन का तेल बेचा जा रहा है। उसमें सबसे सस्ता धान की भूसी का तेल मिलाया जा रहा है। इससे ब्रांडेड कंपनियों को बड़ी कमाई हो रही है। वही उपभोक्ताओं को खुले आम बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा लूटा जा रहा है। उपभोक्ता को पता नहीं होता है। वह मिलावटी तेल खरीद रहा है। बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए सरकार के नियमों में परिवर्तन कराकर करोड़ों रुपए कमा रही हैं। अन ब्रांडेड तेल बेचने वालों के लिए मिलावट के अलग कानून हैं। सरकार ने ब्रांडेड कंपनियों के लिए अलग कानून बना दिया है। ब्रांडेड कंपनियों तेल में किस तेल की कितनी मिलावट कर रही हैं। इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं देती है। उनके लेवल भी अंग्रेजी भाषा में होते हैं। मल्टी सोर्स ऑयल भी बहुत छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। यह लूट पिछले कुछ समय से बढ़ती ही चली जा रही है। सरकार इस लूट पर आख बंद करके बैठी हुई है।

#### दावोस में दिखेगी भारत की विविधता में एकता की झलक

दावोस। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की शुरुआती बैठक में भारत ने 'विविधता में एकता' का संदेश दिखाया। सोमवार से पांच दिन तक चलने वाली इस महामहिम सभा में भारत ने अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता को दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर नेताओं को दिखाने का भारत का मिशन है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पांच केंद्रीय मंत्रियों के साथ तीन मुख्यमंत्री, करीब 100 सीईओ, सरकारी अधिकारी और कला-संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का समावेश है। भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। बैठक में महाराष्ट्र ने 7 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने का लक्ष्य रखा है। तेलंगाना और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी निवेश के अपने हिस्से की तलाश की है। इस महामहिम सभा के माध्यम से भारत अपनी मजबूत वृद्धि दर्ज करने का मिशन ले रहा है, जब दुनियाभर के अर्थशास्त्रियों के सर्वे अनुसार 2025 में वैश्विक आर्थिक स्थितियों के बारे में कमजोर होने की चिंता है। हालांकि, भारत ने अपने रफतार को बनाए रखने की पहल रखी है।

#### अगर आपको भी है गैंगिंग ऐप की लत तो हो जाए सावधान

जम्मू। जम्मू के साइबर सेल डी.पी.ओ. ने ऑनलाइन और ऑफलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामलों के खिलाफ लड़ाई में नए कदम उठाए हैं। उनकी टीम ने लगातार काम करके आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है। इस समय साइबर सेल ने कई मामलों को सुलझाते हुए धोखाधड़ी से बरामद की गई राशि का आंकलन किया है। इन मामलों में लगभग 7 लाख रुपये की राशि बरामद की गई है। शिकायतकर्ताओं ने टेलीग्राम पर ट्रैडिंग और नकली गैंगिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। साइबर सेल जम्मू के एक प्रतिनिधि ने बताया कि वे उन्हें किस तरह कर्मचारियों और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों में सफलतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिल रही है। जम्मू साइबर सेल ने धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई है और धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामलों में कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार साइबर सेल ने एक बार फिर अलग-अलग साइबर अपराध शिकारियों में धोखाधड़ी से 6,90,460 की राशि सफलतापूर्वक बरामद की है।

## आम बजट में आरएंडडी के प्रोत्साहन के लिए नई योजना की घोषणा

नई योजना से विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा

नई दिल्ली। आम बजट 2025-26 में भारत में शोध एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन पीएलआई योजना की घोषणा की गई है। इस नई योजना के माध्यम से विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा, जिससे देश को नवोन्मेषण का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। पीएलआई योजना के बारे में बात करते हुए डेलायट इंडिया के एक भागीदार ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें कर रियायतें कम हों और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाएं हों, जो निवेश और रोजगार को बढ़ावा दें। हमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है और यदि ऐसी नीति हो सकती है जो इसे प्रोत्साहित करे, जैसे कि विदेशी कंपनियों को शामिल करने वाली पीएलआई योजना, तो यह देश के लिए बड़ा कदम होगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट संसद में एक फरवरी को पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नयी योजना में विदेशी कंपनियों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीतियां हो सकती हैं, जो देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दें। भारत एक सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है और अगर इसे आगे बढ़ाया जाए, तो यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। सरकार को इस नई योजना से आर्थिक उत्थान को लेकर नए किताब को उम्मीद है और देश को नए दिशानिर्देश में ले जाने की उम्मीद है।



छह माह की चुनौतियों के बाद रिलायंस ने फिर पकड़ी वृद्धि की राह: ब्रोकरेज कंपनियां

नई दिल्ली। देश की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) छह महीने की चुनौतियों के बाद एक बार फिर वृद्धि के पथ पर लौट आई है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। एक ब्रोकरेज कंपनियों ने यह बात कही है। कच्चे तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में कार्यरत समूह ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अपनी सबसे ऊंची 43,800 करोड़ रुपये की कर-पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) दर्ज की है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं आंकड़ों से पता चलता है कि समूह ने विभिन्न कारोबार क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है। मुख्य रूप से कंपनी ने तेल-से-रसायन (ओ2सी) क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कंपनी के उपभोक्ता खुदरा कारोबार में भी सुधार हुआ है। कंपनी विनाइल, पॉलिएस्टर श्रृंखला और इथेन आयत लॉजिस्टिक्स में निवेश के साथ घरेलू बाजार पर केंद्रित अपनी रणनीति का विस्तार करना चाहती है। एक रिसर्च कंपनी ने कहा कि उसे 2025 में समूह के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कई उद्वेग दिख रहे हैं। इसमें खुदरा क्षेत्र में बदलाव, नई ऊर्जा की शुरुआत और डिजिटल कारोबार में नई गति शामिल है। इसने कहा कि हमारा मानना है कि तीसरी तिमाही का नतीजा उम्मीदों के अनुरूप रहा है। यह निकट अवधि में उम्मीद से थोड़ा कमतर नतीजों में आखिरी है। अब हमारा मानना है कि खुदरा क्षेत्र में बदलाव, नए ऊर्जा कारोबार की शुरुआत और डिजिटल कारोबार की रफ्तार समूह के लिए उत्प्रेरक साबित होगा।



## इस साप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे 5 नए आईपीओ



मुंबई

घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह 5 कंपनियों के आईपीओ खुलेंगे। इन 5 कंपनियों में 4 एएसएमई सेगमेंट और 1 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल हैं। मेनबोर्ड में इस हफ्ते डेटा वाटर का आईपीओ खुल रहा है। यह मेनबोर्ड आईपीओ 22 जनवरी से 24 जनवरी तक खुला रहेगा। कंपनी ने 279 रुपए से 290 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।

इस आईपीओ के लिए 50 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिससे निवेशकों को कम से कम 14,700 रुपए का दांव लगाना होगा। बता दें कंपनी ग्रे मार्केट में 110 रुपए के जीएमपी पर ट्रेड कर रही है। कंपनी के आईपीओ का साइज 169.37 करोड़ रुपए का है।

इस आईपीओ के जरिए कंपनी 32.20 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं 32.20 लाख शेयर ऑफर फाल सेल के तहत जारी किए जाएंगे। कंपनी के आईपीओ का 20 जनवरी को खुल रहा है। आईपीओ पर निवेशकों के पास 22 जनवरी तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 250 रुपए से 263 रुपए तय किया गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी 110 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है।

मेनबोर्ड आईपीओ 22 जनवरी से 24 जनवरी तक खुला रहेगा

कंपनी का आईपीओ 22 जनवरी को खुल जाएगा।

निवेशकों के पास 24 जनवरी तक दांव लगाने का मौका रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 145 रुपए है। कंपनी ने 1000 शेयरों का लॉट बनाया है। जिससे निवेशकों को कम से कम 145000 रुपए का दांव लगाना होगा।

आईपीओ 23 जनवरी को खुल जाएगा। निवेशक 27 जनवरी तक दांव लगा सकते हैं। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 235 रुपए से 250 रुपए प्रति शेयर तय किया है। वहीं लॉट साइज 600 शेयरों का है। निवेशकों को एक साल 1.50 लाख रुपए का निवेश करना होगा। यह एएसएमई आईपीओ 24 जनवरी को खुलेगा। निवेशक 28 जनवरी तक आईपीओ पर दांव लगा पाएंगे। कंपनी ने अभी प्राइस बैंड की घोषणा नहीं की है। आईपीओ के जरिए 24.58 लाख शेयर जारी किए जा सकते हैं।

## आठ शहरों में घरों की बिक्री में 26 फीसदी की गिरावट: रिपोर्ट

बिक्री में गिरावट महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव और संपत्ति की बढ़ी हुई कीमतों से आई

मुंबई

मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु समेत देश के आठ प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। बताया जा रहा है कि बिक्री में गिरावट महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव और संपत्ति की बढ़ी हुई कीमतों को वजह से आई है। एक रियल एस्टेट परामर्श मंच की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस विश्लेषण में शामिल आठ में से तीन शहर महाराष्ट्र और हरियाणा में स्थित हैं जहां पर बीती तिमाही में विधानसभा के चुनाव हुए। हालांकि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर सालाना आधार पर बाकी सभी सात शहरों में



घरों की बिक्री में गिरावट आई है। दिल्ली-एनसीआर में दिसंबर तिमाही में घरों की बिक्री 50 प्रतिशत बढ़कर 9,808 इकाई रही जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 6,528 था। बीते वर्ष की चौथी तिमाही में नई परियोजनाएं पेश करने में 33 प्रतिशत की गिरावट आई है। आठ में से पांच शहरों में पिछली तिमाही की दौरान पेश नई परियोजनाओं की संख्या घटी है। संपत्तियों की खरीद-बिक्री या किराये पर लेन-देन की जानकारी देने

वाले मंच के एक अधिकारी ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर में त्योहारों के दौरान बिक्री में तिमाही आधार पर वृद्धि हुई। इसके बाद भी अधिकांश क्षेत्रों में बिक्री और नई पेशकश में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई क्षेत्र (एमएमआर) में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 33,617 घरों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 48,553 घरों की बिक्री हुई थी।

## कंपनियों के तिमाही परिणाम, एफपीआई के रुख से तय होगी शेयर बाजार की दिशा

कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल भी बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी

मुंबई। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों की दिशा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद की घोषणाओं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की गतिविधियों के रुख से तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। ट्रंप सोमवार को दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसका अलावा विदेशी सरकार के आर्थिक और राजकोषीय रुख की रूपरेखा तैयार करेगा। बाजार प्रतिभागी नीतिगत उपायों, राजकोषीय आवंटन और विकास पहल



बाजार के एक वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक ने कहा कि जैसे-जैसे तिमाही नतीजों का सीजन आगे बढ़ेगा, निवेशकों का ध्यान आगामी केंद्रीय बजट पर केंद्रित होने की उम्मीद है, जो साल के लिए सरकार के आर्थिक और राजकोषीय रुख की रूपरेखा तैयार करेगा। बाजार प्रतिभागी नीतिगत उपायों, राजकोषीय आवंटन और विकास पहल

देश की पहली सोलर कार लॉन्च, सिर्फ 80 पैसे में 1 किमी दौड़ेगी

नई दिल्ली। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए इनोवेशन की ओर बड़े कदम बढ़ रहे हैं। हाल ही में पुणे की बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट-अप कंपनी वेव मोबिलिटी ने देश की पहली सोलर पावर कार वायवे ईवा को लॉन्च किया है। यह कार केवल 3.25 लाख रुपए में उपलब्ध है और कंपनी का दावा है कि यह 250 किमी की ड्राइविंग रेंज के सिंगल चार्ज पर प्रदर्शन कर सकती है। वायवे ईवा का डिजाइन भी विशेष है, जिसमें सोलर पैनल को सनरूफ पर इस्तेमाल किया गया है। कार में अंदर कंफर्ट और एंटरटेनमेंट के लिए एसी, एपल कारले, और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी सिस्टम भी शामिल हैं। इसकी टॉप स्पीड 70 प्रति किमी है और फुल चार्ज होने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। पर्यावरण को देखते हुए सोलर पावर ड्राइव का उपयोग करने में यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सोलर कारों की एंटी से मोटर व्यावसाय में गहरा तबदलाव देखने के अवसर है, जिससे न केवल इंडस्ट्री में विकास होगा बल्कि पर्यावरण की भी ध्यान में रखा जा सकेगा।



घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा। कुछ शेयर विशेष गतिविधियों देखने को मिल सकती हैं। निवेशकों की नजर कंपनियों के तिमाही नतीजों तथा प्रबंधन की टिप्पणियों पर रहेगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में शपथ

लेने के बाद नीतिगत घोषणाएं वैश्विक स्तर पर बाजार धारणा को काफी प्रभावित करेंगी। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि आगे हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह बाजार कई घरेलू और वैश्विक कारकों के कारण सतर्क रुख बनाए रखेगा।





## जीआई-पीकेएल: कबड्डी के सितारों ने शुरू किया प्रशिक्षण

गुरुग्राम

आगामी ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग (जीआई-पीकेएल) में शामिल राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने मैट पर जमकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। लीग में मिश्र, केन्या, अजेंटीना, ताइवान जैसे कई देशों की भागीदारी देखी जाएगी। इसके अलावा पोलैंड खिलाड़ियों का ड्राफ्ट जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, पुरुष और महिला दोनों एथलीटों ने लीग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ सविन नरवाल, संदीप कंडोला, अजय कुमार और कपिल नरवाल जैसे प्रमुख खिलाड़ी अपने खेल को बेहतर से बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर एम अनिता, इंद्रा रोहिणी, अरुल संधिया और सेल्वेन्द्रिका जैसे राष्ट्रीय

**ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग की शुरुआत से पहले खिलाड़ी जमकर बहा रहे प्रशिक्षण**

स्वर्ण पदक विजेताओं ने भी अपने-अपने राज्यों में अभ्यास सत्र शुरू कर दिया है। रांची में तैनात भारतीय सेना के राइफलमैन सविन नरवाल अपनी बटालियन में रहते हुए अपने कबड्डी कौशल को निखार रहे हैं। कई कबड्डी लीगों में भाग लेने के बाद राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सविन जीआई-पीकेएल में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। लीग के बारे में सविन नरवाल ने कहा कि ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग के लिए

प्रशिक्षण बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी की तरह जीआई-पीकेएल का हिस्सा होना मेरे लिए भी गर्व की बात है। मैं पहले भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेल चुका हूँ और मैं अपने ए-गेम को फिर से मैट पर लाने के लिए उत्सुक हूँ। इसी क्रम में कबड्डी की एक और जादूगर एम अनिता ने कहा कि जीआई-पीकेएल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना एक ऐसा अद्भुत अनुभव होगा, जो विभिन्न खेल शैलियों को समझने का अवसर प्रदान करेगा। अरुल संधिया ने भी लीग को लेकर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि एक ऐसी लीग का हिस्सा बनना जो दुनिया भर के खिलाड़ियों को एकजुट करती है, निश्चित

तौर उन्हाह का विषय है। मैं रणनीतियों को साझा करने और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से सीखने के लिए उत्सुक हूँ। यह अनुभव निश्चित रूप से मेरे खेल को और बेहतर बनाएगा। खिलाड़ियों की भागीदारी और उत्साह के बारे में बात करते हुए होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कंथी डी. सुरेश ने कहा कि जीआई-पीकेएल को लेकर खिलाड़ियों और प्रशंसकों का उत्साह कबड्डी की बढ़ती लोकप्रियता और खेल को एकजुट करने की शक्ति को उजागर करता है। यह लीग हमारे उस दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो तमाम बाधाओं को तोड़ विभिन्न देशों की विभिन्न संस्कृतियों के सभी महिला और पुरुष खिलाड़ियों को एक जैसा मंच देने की सोच रखती है।

### न्यूज़ ब्रीफ

पाक ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में 127 रनों से हराया, 1-0 की बढ़त हासिल की



मुल्तान। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दो मैचों की टैस्ट सीरीज के पहले ही मैच में 127 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में पाक की जीत में रिपनरों साजिद खान और अबरार अहमद के अलावा कसान शान मसूद की अहम भूमिका रही। मसूद ने जहां अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 52 रन बनाये। वहीं साजिद ने पांच विकेट जबकि अबरार ने चार विकेट लिए। इस प्रकार पाक टीम ने तीसरे ही दिन ये मैच जीत लिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 230 रन बनाए। इसके बाद पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 137 रन पर आउट हो गई। इस प्रकार पहली पारी में पाकिस्तान को 93 रन की बढ़त मिली। वहीं पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 157 रन बनाए और टीम की कुल बढ़त 250 रन की हो गई। इस प्रकार वेस्टइंडीज को जीत के लिए 251 रन का टारगेट मिला था, लेकिन ये टीम दूसरी पारी में 123 रन पर आउट हो गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज की ओर से केवल ऐलेक ऐथेनर ही 55 रन बना पाये। वहीं अन्य बल्लेबाज सस्ते में ही सिमट गये। टीम के केवल पांच बल्लेबाज ही दो अंकों तक पहुंच पाये।

**शुभमन नहीं पांड्या को उपकप्तान बनाने चाहते थे गंभीर**

मुंबई। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच मतभेद की अटकलें एक बार फिर तेज हो गयी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर और आइसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और

इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाना चाहते थे पर रोहित उनसे सहमत नहीं थे। रोहित ने उपकप्तान के लिए शुभमन गिल के नाम का प्रस्ताव रखा था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शुभमन रोहित शर्मा के बाद कप्तानी संभालेंगे। रिपोर्ट के अनुसार कोच गंभीर नहीं चाहते थे कि शुभमन को उप कप्तान बनाया जाये पर रोहित शुभमन के पक्ष में थे। जिससे शुभमन को जिम्मेदारी मिली गयी। गौरतलब है कि हार्दिक पांड्या टी20 विश्व कप पहले तक टीम इंडिया की कप्तानी के प्रबल दावेदार थे। रोहित के साथ वह टीम की उप कप्तानी करते थे पर टी20 विश्व कप के बाद रोहित ने हार्दिक की जगह सुर्यकुमार यादव को इस प्रारूप में कप्तान बनने का प्रस्ताव रखा था। इस तरह हार्दिक के हाथ से टी20 की कप्तानी भी निकल गयी थी। पांड्या के अलावा एकदिवसीय सीरीज और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए सजू सैमसन के नाम पर भी बात हुई थी। गंभीर इसमें मुख्य विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत की जगह सजू सैमसन को चाहते थे पर रोहित ने ऋषभ को भी शामिल करने और विकल्प के तौर पर केएल राहुल को रखने जाने का प्रस्ताव दिया।

**भारतीय टीम में एक और तेज गेंदबाज चाहिये था : इरफान पटान, सैमसन की जगह नै होता तो मुझे भी निराशा होती**



नई दिल्ली। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पटान ने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए चयनित भारतीय टीम में तेज गेंदबाजों की कमी पर चिन्ता जतायी है। पटान के अनुसार टीम में मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह ही शामिल हैं। उन्होंने कहा कि टीम में शामिल दो तेज गेंदबाज हाल ही में चोटिल रहे हैं, इसलिए एक और तेज गेंदबाज को टीम में शामिल किया जा सकता था। बुमराह पीट की पंजन से उबर रहे हैं जबकि शमी सर्जरी के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। वहीं पटान ने विकेटकीपर बल्लेबाज सजू सैमसन लेकर कहा कि वह अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम में जगह नहीं मिलने से निराश होंगे। मैं भी उनकी जगह होता तो मुझे भी निराश हुई होती। टीम में सैमसन के अलावा, धरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे करुण नायर को जग नहीं मिलने से सभी हेरान हैं। वहीं पटान ने कहा तेज गेंदबाज मो सिराज को कार्यभार प्रबंधन के कारण ही आराम दिया होगा। साथ ही कहा कि शुभमन गिल को उपकप्तानी दिया जाना ठीक है। उन्होंने आगे कहा, शुभमन नेतृत्व के लिए सही राहें पर हैं, उनका एकदिवसीय क्रिकेट में शानदार साल रहा है। वहीं विकेटकीपर की भूमिका के लिए सैमसन को भी दावेदार माना जा रहा था पर उन्हें जगह नहीं मिली क्योंकि टीम के पास पहले से ही विकेटकीपर के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत थे।

## बीसीसीआई दिशा-निर्देशों को लेकर बीसीसीआई सचिव से बात करेंगे रोहित

मुंबई

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के नये दिशा-निर्देशों को लेकर खिलाड़ी संघ में हैं, इसलिए वह मामले पर बोर्ड सचिव देवाजीत सैकिया से बात करेंगे। इन दिशा-निर्देशों में एक ये भी है कि खिलाड़ी विदेशी दौरों पर केवल 14 दिन के लिए ही अपने परिवार को साथ रख पायेंगे। वहीं किसी भी बदलाव के लिए कोच और बोर्ड से बात करनी होगी। यह नियम टीम के खिलाड़ियों को अच्छा नहीं लगा है।

रोहित ने कहा कि दिशा-निर्देशों के बारे में अभी बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं आया है। वहीं चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने कहा कि एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गयी है।

साथ ही कहा कि अगर हम इसी पर बात करते रहेंगे तो शायद यह चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हर टीम के कुछ नियम होते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में कई चीजों के बारे में बात की है जिसमें आप एक टीम के रूप में सुधार कर सकते हैं। अगरकर ने कहा कि बस इतना है कि आपके पास कुछ नियम होते हैं और जब आप राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं तो आप उन नियमों का पालन करते हैं। ये परिपक्व खिलाड़ी हैं। वे अंतरराष्ट्रीय खेल में अपने आप में सुपरस्टार हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि ये नियम हमेशा से ही रहे हैं और से 'प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है' जिनका राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करते समय पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि लेकिन आखिरकार आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आप स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं जैसे कि हर टीम करती है। मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से नियम पहले से ही लागू हैं।



### असम दल के राष्ट्रीय खेल जर्सी का विमोचन और वितरण

गुवाहाटी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले असम दल की जर्सी का रविवार को गुवाहाटी के सरसजाई खेल परिसर में आधिकारिक रूप से विमोचन और वितरण किया गया। असम ओलंपिक संघ और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए असम टीम को औपचारिक रूप से शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और असम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि नई पीढ़ी की सफलताएं राष्ट्र को गौरवान्वित करती हैं। इसी तरह खिलाड़ियों की उपलब्धियां समाज को प्रेरित करती हैं। असम के खिलाड़ियों ने अपनी सफलता से देश और राज्य को गर्वान्वित किया है और आगामी राष्ट्रीय खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने असम टीम को राष्ट्रीय खेलों में हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा को धन्यवाद दिया। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और असम सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारीका ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों की तरह गैर-पदक विजेताओं को भी समान प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा, ताकि कोई खिलाड़ी मानसिक रूप से हतोत्साहित न हो। दूसरे उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जयंत मल्लबरुवा ने कहा कि असम सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल में करियर बनाने के लिए नई पीढ़ी को हर अवसर प्रदान करेगी। असम ओलंपिक संघ के सचिव लक्ष्य कोवर ने जानकारी दी कि उतराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में असम 22 खेल विधाओं में लगभग 300 खिलाड़ियों और अधिकारियों का दल भेजेगा। इस दल में 237 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें ओलंपियन, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के पदक विजेता तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के लगभग 20 खिलाड़ी शामिल हैं। कोवर ने विश्वास जताया कि असम इस बार 50 से अधिक पदक जीत सकता है।

### ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस



मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में खेलती हुई अमेरिका की कोको गाफ।

## अभिनेत्री गुल पनाग और मुक्केबाज स्वीटी बूरा ने की 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' की अगुवाई

नई दिल्ली

अभिनेत्री गुल पनाग और अर्जुन पुरस्कार विजेता मुक्केबाज स्वीटी बूरा ने 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश में खेल और फिटनेस संस्कृति का निर्माण करने का यह एकमात्र तरीका है। अभिनेत्री पनाग और मुक्केबाज बूरा ने रविवार को गुरुग्राम के लेजर वेलो पार्क में 500 से अधिक साइकिल चालकों की अगुवाई की।

गुल पनाग ने कहा कि 'फिट इंडिया अभियान से तब से जुड़ी हुई हूँ, जब इसे कई साल पहले लॉन्च किया गया था। यह भारतीय खेल प्राधिकरण की एक शानदार पहल है। मुझे लगता है कि फिट इंडिया अभियान ही एकमात्र तरीका है, जिससे हम खेल और फिटनेस संस्कृति

का निर्माण कर सकते हैं। यह अभियान भारत को प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में अधिक पदक जीतने में मदद करेगा, लेकिन हमें फिटनेस संस्कृति से शुरुआत करनी होगी। संडे ऑन साइकिल एक शानदार पहल है। अगर अन्य दिनों में नहीं, तो हम रविवार को एक आसान सवारी के लिए समय निकाल सकते हैं।

मुक्केबाज स्वीटी बूरा ने गोल्फ कोर्स रोड, एआईटी चौक, आर्य समाज रोड और मिलेनियम सिटी सेंटर से होकर लेजर वेलो पार्क तक 20 किमी की शानदार पहल है। मुझे लगता है कि फिट इंडिया अभियान ही एकमात्र तरीका है, जिससे हम खेल और फिटनेस संस्कृति



## नेपाल की महिला और पुरुष टीम खो-खो विश्व कप फाइनल में अपना-अपना मैच खेलेंगी

काठमांडू

नेपाली खो-खो की पुरुष और महिला टीमों ने भारत में हो रहे खो-खो विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। नेपाल की महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर एक ऐतिहासिक शील का पथर हासिल किया है। शनिवार को नेपाली टीम ने पहले सेमीफाइनल में युगांडा को हराकर चैम्पियनशिप मैच में अपना स्थान सुरक्षित किया। दोनों नेपाली टीमों रविवार की शाम को अपना-अपना फाइनल मैच खेलेंगी।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर हॉल में आयोजित मैच में नेपाल की महिला टीम ने युगांडा पर 89-18 की जीत के साथ फाइनल में अपने जगह सुरक्षित की। फाइनल में नेपाल का मुकाबला भारत के साथ होने वाला है। भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका



को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई है। इसी तरह नेपाल की पुरुष टीम ने भी खो-खो विश्व कप के सेमीफाइनल में इरान का सामना किया और फाइनल में मैच खेलने के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। दोनों टीमों के लिए फाइनल का

मुकाबला होना है। यह पहली बार है, जब कोई नेपाली टीम किसी भी खेल में विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसे राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने दोनों टीमों को विश्वकप के फाइनल मैच के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं।

को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई है। इसी तरह नेपाल की पुरुष टीम ने भी खो-खो विश्व कप के सेमीफाइनल में इरान का सामना किया और फाइनल में मैच खेलने के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। दोनों टीमों के लिए फाइनल का

क्योंकि संडे है साइकिलिंग के लिए। उन्होंने कहा कि यह फिट इंडिया की एक साइकिल चलाकर बहुत खुश हूँ। साइकिल चलाने के कई फायदे हैं, जैसे चुटनों की सेहत अच्छी रहती है, मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति भी बढ़ती है, जिससे बेहतर गतिशीलता में मदद मिलती है। यह आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। चाहे आप युवा हों या बूढ़े, साइकिल चलाना समय फिटनेस और स्वस्थ रहने के लिए फायदेमंद है।

इसके अलावा पटियाला के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में 80 से अधिक राइडर्स ने टैड और घने कोहरे के बावजूद साइकिलिंग इवेंट के लिए 11 किलोमीटर की दूरी पूरी की।

प्रतिभागियों में प्रशासनिक अधिकारी, खेल वैज्ञानिक, सहायक कर्मचारी, कोच, डिप्लोमा प्रशिक्षु और राष्ट्रीय उल्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) के एथलीट शामिल थे। क्षेत्रीय केंद्र गांधीनगर में भारतीय डाक विभाग के 50 सवारों ने, मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति भी बढ़ती है, जिससे बेहतर गतिशीलता में मदद मिलती है। यह आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। चाहे आप युवा हों या बूढ़े, साइकिल चलाना समय फिटनेस और स्वस्थ रहने के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा पटियाला के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में 80 से अधिक राइडर्स ने टैड और घने कोहरे के बावजूद साइकिलिंग इवेंट के लिए 11 किलोमीटर की दूरी पूरी की।



## जानकारी

## पके से ज्यादा फायदेमंद है कच्चा केला



फलों और सब्जियों में बढ़ते पेस्टीसाइड्स का प्रयोग लोगों में भय पैदा कर रहा है। इससे किसी बीमारी का शिकार होने का डर रहता है। ऐसे ही कुछ लोगों के दिमाग में यह भी शंका रहती है कि केले को केमिकल से पकाया जाता है, जिससे वह हानिकारक हो जाता है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो आप कच्चा केला भी खा सकते हैं, क्योंकि कच्चे केले में भरपूर मात्रा में पोटेसियम पाया जाता है जो कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को तो मजबूत बनाता है साथ ही आपको दिनभर एक्टिव भी बनाए रखता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन बी6, विटामिन सी, एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो कि कोशिकाओं को पोषण देता है। इसके और भी कई लाभ हैं।

## कब्ज से निजात

इसका सेवन करने से हमारी शरीर की आंत में जमी विषाक्त तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है। क्योंकि इस समस्या के कारण आपको कब्ज की समस्या हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए इसका सेवन जरूर करना चाहिए।

## वजन घटाए

इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जात है। इसका रोजाना सेवन करने से आपको जल्द ही मोटापा से निजात मिल सकता है। ये शरीर में मौजूद अनावश्यक फैट सेल्स और अशुद्धियों को साफ करने में मददगार होते हैं। जिसके कारण आपका फैट आसानी से बर्न हो जाता है।

## डायबिटीज कंट्रोल करे

अगर आपको डायबिटीज की समस्या है और अपनी शुरुआत ही है तो कच्चे केला का सेवन करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। जिसके कारण ये आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है।

## पेट को रखे हेल्दी

कच्चा केला हमारी पेट के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसका सेवन करने से यह हमारे पेट को भरा रखता है। जिसके कारण हमें पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही ये पाचक रसों का स्रावण बेहतर तरीके से होता है।

## हड्डियों को करें मजबूत

कच्चे केले में अधिक मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है जो कि आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत रखता है।



## बस करें ये छोटा सा आसान उपाय, कभी नहीं आएगा बुढ़ापा

जिंदगी की शाम जब ढलने लगती है तो न सिर्फ शरीर में ढेरों बीमारियां अपना घर बना लेती हैं, बल्कि जीवन में एक सूनापन भी छा जाता है। हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं, जो 60 साल की उम्र में भी उसी जीवंतता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। योग के सहारे इस उम्र में भी खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से दुरुस्त रख सका जा सकता है।

वैसे तो उम्र ढ़ाव पर ही योग के अनेक फायदे हैं, लेकिन स्त्रियों को तो योग के जरिये अतिरिक्त फायदा पहुंचता है। उम्र के अलग-अलग दौर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं।

एसे में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने, बीमारियों को दूर करने, हड्डियों की उम्र बढ़ाने, माइंड को शांत करने



और अपनी स्किन की टाइनिंग और ग्लो को बनाए रखने के लिए योग का रास्ता अपना सकते हैं। ये दो प्राणायाम अपने आप में ही संपूर्ण हैं।

## कपालभाति

इसके नियमित अभ्यास से आप लंबे समय तक निरोग रह सकते हैं। दरअसल, इस प्राणायाम के दौरान जब हम गहरी सांस भरते हैं तो शुद्ध वायु हमारे खून के दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देती है और शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों में जाकर

उन्हें पोषण प्रदान करता है। इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी आसन में बैठ जाएं। अब दाहिने हाथ के अंगुठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद कर लें और बाएं छिद्र से चार तक की गिनती में सांस को भरें और फिर बायें नासिका को अंगुठे के बगल वाली दो उंगलियों से बंद कर दें। इसके बाद दायें ओर से अंगुठे को हटा दें और सांस को बाहर छोड़ें। आप इसको अपनी क्षमता के अनुसार पांच मिनट से पंद्रह मिनट तक कर सकते हैं।

## लिवर को दुरुस्त रखना है तो पिएं चुकंदर का जूस



लिवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लिवर शरीर के कई कामों को नियंत्रित रखता है। अगर लिवर खराब हो जाए तो ये गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसे दुरुस्त रखने के लिए हम कुछ खास पेय का सेवन कर सकते हैं।

आइए जानते हैं

## 1 चुकंदर का जूस

चुकंदर के जूस का सेवन करने से लिवर में पैदा विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। लिवर को

स्वस्थ बनाए रखने के लिए चुकंदर के जूस का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है।

## 2 नींबू का जूस

लिवर को साफ रखने के लिए नींबू के जूस का इस्तेमाल करना बहुत लाभदायक है। इसमें कम शुगर पाई जाती है। इसके सेवन से लिवर में पैदा गंदगी भी दूर हो जाती है।

## 3. अनानास का जूस

विटामिन और खनिज से भरपूर अनानास के जूस शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, तांबा, जस्ता, एंटी-इंफ्लेमेटरी पाचन एंजाइम और फोलेट पाए जाते हैं जो लिवर स्वस्थ रखते हैं।

## 4. पालक का जूस

पालक में पोटेसियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैरोटीन और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पत्तेदार हरी सब्जी पौष्टिक तत्वों से अधिक होती है। इसका सेवन करने शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

## सुझाव

## रोज खाएं एक आंवला फिर देखें कमाल



किसी ने सच ही कहा है कि बड़े बुजुर्गों का कहा और आंवले का खया बाद में पता चलता है। जी हां, धरती पर आंवला किसी वरदान से कम नहीं है। आंवला एक ऐसा फल है, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट, पोटेसियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इसको गर्म करके भी खाएं तो भी इसमें मौजूद विटामिन खत्म नहीं होते। आंवला का सेवन करने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं और यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है।

**मोटापा:** आजकल हर दूसरा व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा है। जिसका सबसे बड़ा कारण आजकल का लाइफस्टाइल है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में रोज एक आंवला खाना शुरू करें जिससे मोटाबांलिज्म बढ़ता है और वजन तेजी से कम होने लगता है।

**कमजोरी:** यदि आप कमजोरी महसूस करते हैं। थोड़े-से काम करने पर थक जाते हैं तो एक माह तक लगातार एक कच्चा आंवला खाकर देखें। इससे जो फायदा होगा, उससे आप खुद हैरान रह जाएंगे। दरअसल, आंवले में विटामिन सी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसके चलते एनर्जी बढ़ती है और धीरे-धीरे कमजोरी दूर हो जाती है।

**चेहरा चमकाए:** आंवला में विटामिन ए होता है, जो कोलेजन बनने के लिए बहुत जरूरी है। इससे त्वचा टाइट रहती है। आंवला सुबह खाली पेट लेने से शरीर में कोलेजन की कमी दूर होती है। इसके सेवन से मुंहासे और झुर्रियों की समस्या भी कम हो जाती है। इसे खाने से बाँड़ी के टॉक्सिन्स दूर होते हैं जिससे फेस पर ग्लो आता है।

**डायबिटीज:** आंवला डायबिटीज के लिए फायदेमंद माना जाता है। रोजाना आंवला का सेवन करने से खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। साथ ही आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है।

**जोड़ों का दर्द:** आंवले में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं, जो जोड़ों के दर्द के साथ अन्य तरह के दर्द में राहत देते हैं। यदि आपके शरीर में हमेशा दर्द रहता है या आपको जकड़न की शिकायत है तो यकीन मानिए, आंवले से आपको किसी भी तरह के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा।

**बालों के लिए वरदान:** बालों की किसी भी तरह की परेशानी को आंवला झटपट खत्म कर देता है। इसीलिए कई लोग इसकी पेस्ट को बालों में लगाते हैं लेकिन इसके सेवन से भी बाल हेल्दी होते हैं। असल में आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स से बालों की चमक बढ़ती है।

**पाचन क्रिया में मदद:** आंवले का सेवन करने से खाना आसानी से पच जाता है। इसलिए खाने में रोजाना आंवले की चटनी, मुम्ब्या, अचार, रस, चूर्ण आदि शामिल करें। इससे कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाती है।



## शरीर के इन 5 हिस्सों को दबाने से कम हो सकता है आपका मोटापा

आज के दौर में मोटापा सभी के लिए एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। हर कोई चाहता है कि वह अपने मोटापे से जल्द से जल्द निजात पा ले। इसके लिए वह डाइटिंग से लेकर एक्सरसाइज तक करते हैं। बावजूद इसके उन्हें मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलता। हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि मोटापा कम करने के लिए आपके शरीर में ही पांच ऐसे प्वाइंट्स हैं जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। आज हम आपको उन पांच प्वाइंट्स के बारे में बताते जा रहे हैं जिनकी मदद से आप मोटापा कम कर सकते हैं...

## कान के सामने का हिस्सा

डॉक्टरों के अनुसार आप ईयर केनल (कान) के सामने के हिस्से को दबाने से आपको मोटापा कम करने में मदद मिलेगी। एक शोध के अनुसार अगर आप इस हिस्से को रोजाना दो से तीन मिनट तक दबाएं तो आपको काफी फायदा महसूस होगा।

## टखने के नीचे का हिस्सा

आपके घुटने या टखने के नीचे के हिस्से को दबाने से भी आपका मोटापा कम होगा। आप अपनी अंगुली और अंगुठे की मदद से इस हिस्से को रोजाना एक मिनट तक दबाएं। ऐसा करने से आपका डाइजेशन ठीको होता है और आपका वजन कम होता है।

## हाथ की पथेली को दबाने से

डॉक्टरों के अनुसार आप अगर मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ की हथेली पर अंगुठे के पास ऊपर हिस्से को दबाना चाहिए। आप रोजाना इस हिस्से को कम से कम दो मिनट तक दबाएं। ऐसा करने से आपका मोटापा कम होगा। आप पैर के अंगुठे के पास के हिस्से में भी ऐसा ही कर सकते हैं।

## नाभी के पास के हिस्से पर

आप मोटापा को कम करने के लिए इस विधि को भी अपना सकते हैं। इसके लिए आपको नाभी से ठीक नीचे के हिस्से पर दोनों हाथ की दो-दो अंगुली से प्रेसर देना है। आप ऐसा अगले कुछ मिनट तक कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका डाइजेशन सुधरेगा और आपका मोटापा कम होगा।

## कोहनी के जोड़ के ऊपरी हिस्से को

आप अपने कोहनी के जोड़ के ऊपरी हिस्से को भी दबाकर अपने मोटापे पर काबू पा सकते हैं। आप अपनी अंगुली से इस प्वाइंट पर पांच से सात मिनट तक प्रेसर दें। ऐसा आप दोनों हाथ पर कर सकते हैं।

## देखभाल

## आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं, तो इन बातों का रखें ध्यान



आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज्यादातर महिलाओं की पहली पसंद होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं फैशन के साथ अप टू डेट रहना चाहती हैं और वह ऑरिजनल के साथ संभव नहीं है।

यही कारण है कि ज्यादातर महिलाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को प्राथमिकता देती हैं। लेकिन अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रख-रखाव सही से नहीं किया गया तो वह जल्द ही खराब हो जाएगी और आप उन्हें ज्यादा दिनों तक यूज नहीं कर पाएंगी। जानिए कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

## इन बातों का रखें ध्यान

- आर्टिफिशियल ज्वेलरी को रोज यूज नहीं करना चाहिए
- रोज पहनने से इसकी चमक फीकी पड़ जाती है
- आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रख-रखाव सावधानी से करना चाहिए
- इन्हें हमेशा कोटन, बटर पेपर, वेलवेट बॉक्स या जिप लॉक बैग में रखना चाहिए
- फैशन नेकलेस को हमेशा वर्टिकल रूप में लटका कर रखें
- आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल के बाद साफ करें
- ज्वेलरी हमेशा मुलायम कपड़े से साफ करें
- ज्वेलरी को अमोनिया, एल्कोहल, विनेगर या एसिड युक्त वॉलनर से साफ न करें

## रेसिपी

## बिना बैगन भूनें घर में ऐसे बनाएं बैगन का भरता



## ऐसे बनाए

बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले बैगन को छीलकर छोट-छोटे टुकड़ों में काट लें इसके बाद बैगन के टुकड़ों को पानी में डालकर रखें, जिससे वह काला न पड़े। पैन को गैस पर चढ़ाएं। गर्म होने पर इसमें तेल डालें और जौरा का तड़का लगाएं। इसके बाद हींग, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, अदरक डालें और मसाला भूनें लें। मसाला भूनें जाने के बाद टमाटर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें और अच्छे से भूनें

## ऐसे बनाए

जब यह अच्छे से भुन जाएं तो इसमें शिमला मिर्च डालकर मिक्स करें इसके बाद इसमें बैगन के टुकड़े डालकर नमक डालें सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से भूनें जब बैगन में मसाला अच्छी तरह मिल जाए तो इसे ढक्कर 4-5 मिनट तक पकाएं ढक्कर के बाद थाली पर थोड़ा पानी डाल दें। ऐसा करने से बैगन भाप से अच्छे से पक जाएगा। पकने के बाद इसे अच्छे से मैश करके गैस बंद कर दें इस तरह तैयार है बैगन का भरता



## विधि

मकई का आटा, लाल मिर्च पाउडर, अजवायन, 1 टी-स्पून तेल और नमक को एक बाउल में मिलाकर, गरम पानी का प्रयोग कर नरम आटा गूंध लें। 10 मिनट के लिए रख दें। बचे हुए 1 टी-स्पून तेल का प्रयोग कर दुबारा गूंध लें। 4 बराबर भाग में बाँटकर प्रत्येक भाग को 2 प्लास्टिक शीट के बीच रखकर, 250 मि.मी. (10) व्यास के गोल आकार में बेल लें। टोटीला को आसानी से बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा छिड़कें। एक तवा या कढ़ाई को उलटा रखकर गरम करें और गरम होने पर, हल्के हाथों से रोटी रखें, इस बात का ध्यान रखें कि किनारे मुड़ ना जाए ऊपरी परत पर छोटे दाग आने तक पका लें। रोटी को पलट कर और कुछ सेकेंड तक पका लें। बचे हुए आटे का प्रयोग कर 3 और रोटी बनाएं।

## टोटीला

## सामग्री

- 1 कप मकई का आटा
- 1/4 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर
- 1/4 टी-स्पून अजवायन, ऐच्छिक
- 2 टी-स्पून तेल
- नमक स्वादनुसार
- 1/4 टी-स्पून तेल, आटा गूंधने के लिए
- मकई का आटा, बेलने के लिए